

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 124 | गुवाहाटी | मंगलवार, 3 दिसंबर, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद
बकील की हत्या पर उबाल **पेज 2**

बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए
प्रधानमंत्री को लिखा पत्र **पेज 3**

सुखबीर बादल व सुखदेव ढीढसा बनेंगे
गुरुघर के चौकीदार, पूर्व अकाली... **पेज 5**

पीकेएल-11 : पटना पाइरेट्स ने बंगाल
वालियर्स को 3 अंक से हराया, प्लेइंट... **पेज 7**

अगरतला में बांग्लादेशी दूतावास के सामने विरोध, परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी



अगरतला (हि.स.)। अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में और इस्कॉन सदस्य चिन्मय दास प्रभु की रिहाई

इस्कॉन सदस्य चिन्मय दास प्रभु को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। उन्होंने उन्हें खाना भी नहीं दिया। यह पूरी तरह से अवैध और अमानवीय है। उन्होंने चिन्मय दास प्रभु की

-शेष पृष्ठ दो पर

भारत-बांग्लादेश सीमा पर साधु-संतों का प्रदर्शन



कोलकाता (हि.स.)। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों, अत्याचारों को रोकने और आध्यात्मिक गुरु चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के सैकड़ों साधु-

संतों ने सोमवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल बॉर्डर पर हुआ, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति के नेतृत्व में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। साधु-संतों ने भारतीय और बांग्लादेशी सरकारों से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों और अत्याचार पर तत्काल कार्रवाई करें। समिति के बंगाल अध्यक्ष स्वामी परमात्मानंद ने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा,

-शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को शुभेंदु की चेतावनी, बोले- हिंदुओं पर हमले रोको वरना निर्यात पर लगेगा बैन

पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल)। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को लेकर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनके यहां अल्पसंख्यक



हिंदुओं और उनकी संस्थाओं पर हो रहे हमलों को नहीं रोका गया, तो बांगाल की जमीनी सीमा से बांग्लादेश को निर्यात पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने पेट्रापोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक विरोध सभा को संबोधित किया।

-शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात असम निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित



नई दिल्ली/गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल फरवरी में गुवाहाटी में होने वाले असम निवेशक और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को मोदी को निमंत्रण देते हुए अनुरोध किया कि वे 24-25 फरवरी को होने वाले शिखर सम्मेलन और मेगा झुमर प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हों। बैठक से

जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए तुरंत सहमत हो गए। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें यह निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री के साथ 25 मिनट तक चली बैठक के दौरान शर्मा ने उन्हें असम में विकास संबंधी कई पहलों से अवगत कराया और विभिन्न विकास मुद्दों पर प्रधानमंत्री

से मार्गदर्शन भी मांगा। शर्मा ने कहा कि आज नई दिल्ली में मुझे विभिन्न विकास गतिविधियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। असम के लोगों की ओर से मुझे उन्हें फरवरी 2025 में असम निवेशक और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन और मेगा झुमर प्रदर्शन को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य भी मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। दिन में शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की और असम में हर घर जल मिशन के कार्यान्वयन पर चर्चा की। बैठक के दौरान शर्मा ने पाटिल को प्रधानमंत्री के हर घर जल के सपने को लागू करने में राज्य द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति से अवगत कराया, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक नल जल कनेक्शन हैं। योजना के लिए आगे की रूबरूबा पर चर्चा करते हुए शर्मा ने पाटिल से हर घर जल पहल को आगे बढ़ाने और इसकी संतुष्टि सुनिश्चित करने में राज्य की सहायता करने का भी आग्रह किया। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को

-शेष पृष्ठ दो पर

गृह मंत्रालय पर अड़े शिंदे, भाजपा नेताओं के संपर्क से हुए दूर, सभी बैठकें रद्द

मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हो रही देरी के बीच एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच, स्थानीय भाजपा नेता उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वह उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं को बैठक के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि बीमार पड़ने के बाद शिंदे सतारा स्थित अपने गांव से ठाणे



लौट आए हैं। वापसी के एक दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उन्होंने भाजपा नेताओं से संपर्क नहीं

किया है। इस बीच, एकनाथ शिंदे ने विधायकों और समन्वयकों के साथ आज होने वाली सभी बैठकें रद्द कर दीं। डॉक्टरों द्वारा उन्हें आराम करने की सलाह देने के बाद उन्होंने बैठकें रद्द कर दीं और इसलिए वह आज ठाणे में ही रुकेंगे। एकनाथ शिंदे के राते में संक्रमण बताया जा रहा है। ऐसी भी अटकलें थीं कि शिंदे के चेहे शीकांत, जो एक सांसद हैं, संभवतः उपमुख्यमंत्री

-शेष पृष्ठ दो पर

फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम! 4 को होगी घोषणा

मुंबई। वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के आगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संस्था पर, बुधवार 4 दिसंबर को की जाएगी। पदाधिकारी ने कहा कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के बाद आया। भगवा पार्टी ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री

-शेष पृष्ठ दो पर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के पथप्रदर्शक हैं छात्र : डॉ. एस सोमनाथ



गुवाहाटी (हि.स.)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने सोमवार को गुवाहाटी में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के तीसरे दिन स्ट्रूट्ट साइंस इंटरएक्टिव प्रोग्राम - फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भाग लिया, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में करियर तलाशने तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। सत्र के दौरान डॉ. एस. सोमनाथ ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्र और युवा भविष्य के पथप्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में

-शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

पूर्वोत्तर में ड्रस तस्करी पर राष्ट्रीय रक्षा विवि करेगा व्यापक अनुसंधान
पासीघाट/ईटानगर (हि.स.)। भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा पार से हो रही ड्रस तस्करी को लेकर गंभीर है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) को ड्रस तस्करी पर व्यापक शोध और समाधान तलाशने का जिम्मा सौंपा है।

अब दलित प्रेरणा स्थल पर अपना आंदोलन करेंगे किसान

नोएडा (हि.स.)। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हजारों किसानों को पुलिस ने चिब्रा बॉर्डर के पास रोक लिया था। इसके बाद किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल के पास नोएडा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ गए। इससे स्थिति गंभीर हो गई है। इसको देखते हुए पुलिस ने डीएनडी के पास कड़े बंदे बंदोबस्त कर दिए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस भी

-शेष पृष्ठ दो पर

इंडिया गठबंधन में दरार, कांग्रेस के एजेंडे से टीएमसी का किनारा

नई दिल्ली। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दलों के भीतर एक महत्वपूर्ण दरार उभरी है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर असहमत हैं। सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, टीएमसी ने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के एकाकी ध्यान केंद्रित करने पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। टीएमसी का मानना है कि विपक्ष को वह अन्य मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं।



तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में इंडी गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लिया। टीएमसी ने छह प्रमुख मुद्दों

-शेष पृष्ठ दो पर

अफीम की अवैध खेती पर सरकार का चाबुक, 20 हजार एकड़ फसल को किया नष्ट

ईफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती पर लगातार लगाम कस रहा है। मणिपुर सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से अब तक कम से कम 12 जिलों में करीब 20 हजार एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार, पिछले 7 सालों के दौरान मणिपुर में कुल 19,135.60 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। इस अवधि के दौरान

-शेष पृष्ठ दो पर

ओम बिरला संग सर्वदलीय बैठक के बाद संसद में खत्म गतिरोध, सुचारू कामकाज की उम्मीद

नई दिल्ली। संसद में केंद्र और विपक्ष के बीच एक बड़ी सफलता में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में संविधान पर बहस आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। लोकसभा में 13 और 14 नवंबर और राज्यसभा में 16 और 17 नवंबर को बहस होगी। संसदीय गतिरोध

का अंत तब हुआ जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि बैठक में कुछ दिनों से सदन में जो गतिरोध बना हुआ था उस पर सबने चिंता व्यक्त की। रिजिजू ने कहा कि हमने भी कहा कि सदन में सब अपना बात रखने के लिए

-शेष पृष्ठ दो पर

राजनीति में सभी को ऊंचे पद की आकांक्षा : गडकरी



नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आत्मकथा का एक उदाहरण याद है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति तब समाप्त नहीं होता जब वह हार जाता है। वह तब समाप्त होता है जब वह पद छोड़ देता है। दरअसल, नागपुर में जीवन के 50 स्वर्णिम नियम नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर रिविवा को नितिन गडकरी ने कहा कि जीवन समझौतों, बाध्यताओं, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। चाहे व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक,

-शेष पृष्ठ दो पर

गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान फैस के बीच हुई झड़प, 100 से ज्यादा लोगों की मौत

कोनाक्री (गिनी)। गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एन जेरेकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान झड़प में दर्जनों लोग मारे गए। इस घटना की जानकारी अस्पताल सूत्रों ने एएफपी को रिविवा को दी। एक डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अस्पताल में जहां तक नजर जाती है, शव कतराओं में पड़े हैं। अन्य लोग गलियारे में फर्श पर पड़े हैं। मुर्दाभर भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब 100 लोग मारे गए हैं, स्थानीय



अस्पताल और मुर्दाभर में शव भरे पड़े हैं। एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि दर्जनों लोग मारे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मैच के बाहर सड़क से शुरू हुआ। फिर प्रशंसकों ने मैदान पर हमला कर दिया। उन्होंने सुरक्षा कारणों से अपना नाम गुप्त रखने की मांग की।

-शेष पृष्ठ दो पर

कर संग्रह में प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए : राष्ट्रपति



नई दिल्ली (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि इस नए और गतिशील युग में कर संग्रह में कम हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर प्रशासन के क्षेत्र में नए विचार और नए समाधान लाने की जिम्मेदारी युवा अधिकारियों पर है। भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति

-शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact **97070-14771 86382-00107**

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद वकील की हत्या पर उबाल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर भारत की कड़ी नजर : नौसेना प्रमुख अब बड़े एक्शन के मूड में भारत

नई दिल्ली। बांग्लादेश में एस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन प्रदर्शनों में हिंसा हुई, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। देश के दक्षिणपूर्वी बंदरगाह शहर चट्टोग्राम में हिंसा के दौरान एक बांग्लादेशी वकील की हत्या के सिलसिले में क्रम से क्रम नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जारी की गई जानकारी के अनुसार, आरोपी 46 लोगों के एक समूह का हिस्सा थे, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सफाई कर्मचारी थे, जिनके खिलाफ बांग्लादेशी पुलिस ने पहले सहायक लोक अभियोजक सैफुल इस्लाम की हत्या के संबंध में मामला दर्ज किया था। सुरक्षाकर्मियों और हिंदू



समुदाय के नेता चिन्मय कृष्ण दास के अनुयायियों के बीच झड़प के दौरान, जब चिन्मय कृष्ण दास को चट्टोग्राम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। पुलिस ने कहा कि

अदालत परिसर और 26 नवंबर को हुई हिंसा स्थल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान होने के बाद गिरफ्तारियों की गईं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर आरोपी शहर की सेबोक कॉलोनी के निवासी थे, जहां ज्यादातर यहां हिंदू समुदाय के सफाई कर्मचारी रहते हैं। पोर्ट सिटी के कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अब्दुल करीम ने कहा कि सैफुल इस्लाम के पिता ने कल रात 46 लोगों को नामित करते हुए मामला दर्ज कराया। जिसमें से नौ

अरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इसके अलावा, अधिकारी ने चंदन दास के रूप में पहचाने गए प्राथमिक आरोपी के बारे में भी विस्तार से बताया।



हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपने चीन के बारे में सुना होगा कि वह खुद को मध्य साम्राज्य कहता है। एक क्लिबव द हंड्रेड-इंशर मेगथन में बताया गया है कि चीनी लोग क्या बनना चाहते हैं। उनका एक सपना है कि वे विश्व शक्ति बनना चाहते हैं। हम ऐसा होने हुए देख रहे हैं। हमारा मानना ​​है कि यह प्रशांत महासागर में और अधिक

स्पष्ट होगा और हम यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर रहे हैं कि हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे हितों पर कोई असर न पड़े। वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना के कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के सहयोग से बनाई जा रही हैं, जो पश्तोना है कि चीन पाकिस्तान की नौसेना को और मजबूत बनाने में दिलचस्पी रखता है। उनकी आठ नई पनडुब्बियों में पाकिस्तानी नौसेना के लिए महत्वपूर्ण युद्ध क्षमता होगी, लेकिन हम उनकी क्षमताओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि हम अपने पड़ोसियों से सभी खतरों से निपटने में सक्षम होने के लिए अपनी आधारणाओं में बदलाव कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी नौसेना की आश्चर्यजनक वृद्धि से अवगत हैं, जिसका लक्ष्य 50 जहाजों वाली नौसेना बनना है। उन्होंने अपने लोगों के कल्याण करने के बजाय हथियारों को चुना है। हाल ही में आईएनएस अरिघाट से 3,500 किलोमीटर की मार्क क्षमता वाली परमाणु सक्षम मिसाइल के-4 के परीक्षण पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारत का मिसाइल परीक्षण पूरी तरह सफल रहा।

चंडीगढ़ : गीता महोत्सव का मुख्य आकर्षण बना धोरों की धरती राजस्थान की लोक कला

चंडीगढ़ (हिस)। हरियाणा के थानेसर (कुरुक्षेत्र) में स्थित ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। ब्रह्मसरोवर दिल्ली से 159 किलोमीटर व क्षत्रिय रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गीता महोत्सव की शुरुआत सन 1989 में हुई व सन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जा रहा है। यह पर्व मार्गशीर्ष

शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कई दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। बीन-बाजा पार्टी के सरदार (संयोजक) ने बताया कि बीन बजाकर सपेरां के खेल दिखाना सपेरां का मुख्य पेशा था। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 2023 के बाद सांपों को पकड़ना अवैध कर दिया

गया है। जिसके चलते ये अपने पारंपरिक कला के पेशे से वंचित हो गए व आर्थिक दशा भी ठीक नहीं है। इसलिए अपनी जीविका के लिए शादी-विवाहों व अन्य उद्देश्यों पर बीन बजाकर अपना पेशा चल रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग की चकाचौंध व डीजे जैसे वाद्य यंत्रों के आगे बीन बजाना भी फीका पड़ गया है। यह पारम्परिक

कला लुप्त होने की कगार पर है, इसलिए इसके विकास के लिए सरकार और समाज दोनों का योगदान आवश्यक है। सरकार को इनके रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं समाज अगर आधुनिक डीजे जैसे सिस्टम को त्यागकर शादी-विवाहों में बीन बाजा पार्टी को बुलाए तो इनकी जीविका आसान हो जाएगी।

पृष्ठ एक का शेष

अगरतला में बांग्लादेशी...

तत्काल रिहाई की मांग की। हिंदू होने के नाते, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान तथा अन्य किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता है। वे यहां शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों पर हमला नहीं कर रहे हैं। फिर वे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने संबाददाताओं से कहा कि जब तक यूनुस सरकार इस्कॉन नेता को रिहा नहीं करती, तब तक विरोध जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से और खासकर सरकार बदलने के बाद, ये हमले तेज हो गए हैं। आज हम विभिन्न संगठनों की ओर से यहां विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने ने कहा कि मोहम्मद यूनुस हर हकत के लिए और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ज्ञात हो कि त्रिपुरा बांग्लादेश से साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहां पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के पुतले भी जलाए। त्रिपुरा में हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

भारत-बांग्लादेश सीमा...

जब तक बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और उनके मंदिरों को रोकने के लिए कदम नहीं उठाती है। चिन्मय कृष्ण दास, जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस्कॉन ने कोलकाता में कीर्तन और प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर विरोध जताया है। शुभेष्ट अधिकारी का समर्थन-परिचय बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेष्ट अधिकारी ने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने के साथ प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वे बुधवार को हिंदू जागरण मंच और अन्य संगठनों के साथ मिलकर वे पेट्रापोल बॉर्डर पर एक मानवीय श्रृंखला बनाएंगे। भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर निंता व्यक्त की है और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए कार्रवाई की उम्मीद जताई है। गौतमलव है कि बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद के अनुसार, 170 मिलियन की आबादी वाले इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र आठ फीसदी है, लेकिन वे राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बन रहे हैं। अगस्त से अब तक 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें मंदिरों को नुकसान पहुंचाना और हिंदुओं की संपत्तियों को लूटना शामिल है।

हिंदुओं पर हमले ...

इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से व्यापार पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे बांग्लादेश भारत से जरूरी वस्तुओं पर निर्भर होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। हालांकि, वे पार्टी के निशान के बिना यहां मौजूद रहे। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में पेट्रापोल सीमा पर सोमवार को व्यापार चौबीस घंटों के लिए रोक दिया गया था। इस विरोध को भारत के कारोबारी संगठनों, खासतौर पर बंगिया हिंदू समिति की ओर से आयोजित किया गया था। अधिकारी ने कहा कि यह चौबीस घंटे का व्यापार बंद केवल एक शुरुआत है। अगर अगले हफ्ते तक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले नहीं रुके, तो हम पांच दिन तक व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे। नए साल के बाद हम अनिश्चितकाल के लिए व्यापार रोक देंगे। देखते हैं कि वहां के लोग बिना हमारे आलू-प्याज के कैसे रहते हैं। यह विरोध कार्यक्रम इस्कॉन से जुड़े पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में हुआ। अधिकारी ने कहा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है। यह पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, तो हम बांग्लादेश के राजकारों के नए बेटों को 1971 की तरह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेंगे। तब हमने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अधिकारी ने बाद में भाजपा नेताओं और स्थानीय विधायकों स्वप्न मजूमदार, अशोक कोरतानिया और अर्जुन सिंह के साथ पेट्रापोल जीरो व्हाइट टैक मार्च किया, जहां उन्होंने विरोध के प्रतीक के रूप में गुब्बारे छोड़े और बांग्लादेश में हिंदू साधु की बिना शिर्हाई और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिकारी ने कहा कि यह एक क्षण भर का विरोध नहीं है। हम परिचय बंगाल के अन्य सीमा बिंदुओं जैसे हिली और चांगराबंधा में भी ऐसे विरोध आयोजित करेंगे। यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हम राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर हिंदुओं को इसमें शामिल करना चाहते हैं।

असम निवेशक शिखर...

आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय जल जीवन मिशन के तहत संतुष्टि बिंदु हासिल करने में असम की सहायता करेगा। चर्चा के दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मॉर्रिटा, असम के मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हर घर जल (हर घर को जल) जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य 2024 तक दीर्घकालिक आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर

नल का पानी उपलब्ध कराना है। बाद में एक्स (पूर्व में टिवटर) पर मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने लिखा कि आज नई दिल्ली में मुझे विभिन्न विकासवात्मक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। असम के लोगों की ओर से मुझे उन्हें फरवरी 2025 में असम निवेशक एवं असरंरचना शिखर सम्मेलन और मेगा झुमुर प्रदर्शन को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य भी मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

गृह मंत्रालय पर अड़े ...

बनेंगे। हालांकि, उन्होंने ऐसी अफवाहों का खंडन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हो गई है और उनके डिटी सीएम बनने की अफवाहें निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार रात को बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेन्द्र फडणवीस का नाम तय हो गया है, जिन्हें दो या तीन दिसंबर को होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले, निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नए मुख्यमंत्री के चयन के भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेन्द्र फडणवीस का नाम तय हो गया है। भाजपा के नए विधायक दल की बैठक दो या तीन दिसंबर को होगी। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उपमुख्यमंत्री का पद और शिवसेना को गृह विभाग दिए जाने की अटकलों पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति की तीनों सहयोगी शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) आम सहमति से इस पर फैसला करेंगी।

फडणवीस होंगे महाराष्ट्र ...

विजय रूपानी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया, जहां विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। पुजरात के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपानी ने कहा कि पार्टी ने हम दोनों को महाराष्ट्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हम पर्यवेक्षक के रूप में जा रहे हैं जहां विधायक दल के नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय कार्यालय हमें बैठक की तारीख बताएगा और हम जाकर सभी से मिलेंगे और फिर आलाकमान से बात करेंगे। हाईकमान की बात करने तो विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी जायेगी। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सोमवार को घोषणा की कि देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा ने कहा कि मेरी राय है कि फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। भाजपा को कई आश्चर्य नहीं देंगे। सुधीर मुनगंटीवार ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे एस फैसले से नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी विभाग को लेकर आपकी अपनी मांगें हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर नाराज हैं। वह सभी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। शिंदे का सम्मान किया जाएगा। मुझे लगता है कि शिंदे भी सरकार का हिस्सा होंगे। जनता ने महायुति को भारी मतों से जितया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ...

नित नये दिन हो रहे उल्लेखनीय नवाचारों और प्रगति को समझना उनके लिए आवश्यक है। उनकी क्षमता और उनके द्वारा प्रस्तुत अवसरों को पहचानकर, छात्र समान पथ पर चलने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और एक उज्वल कल के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों को दर्शाते हुए, आपका उत्साही अडवा भारत को वैश्विक नेता बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण है। छात्र विज्ञान इंटरैक्टिव कार्यक्रम - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नई सीमाओं से रूबरू नामक इस सत्र का उद्देश्य 4,500 स्कूली छात्रों को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों से जोड़ना है, जिनमें इसरो के अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ और एयरोनॉटिकल सिस्टम्स के पूर्व महानिदेशक प्रो. टी. एस. थॉमस शामिल हैं। इसका उद्देश्य आमने-सामने प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से युवा दिमागों को प्रेरित करना है, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों से परिचित कराना है।

इंडिया गठबंधन में ...

की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें वह सत्र के दौरान उठाना चाहती है। मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फोटि, बेरोजगारी, उर्वरक की कमी, विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों को धन की कमी और मणिपुर में जारी हिंसा। टीएमसी नेताओं का तर्क है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण बकाया जारी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की है, जो अर्धुर जीएसटी हस्तांतरण के साथ-साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी अदानी समूह के खिलाफ आरोपों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिभोग के दावों पर संसद में तत्काल चर्चा के लिए दबाव डाल रही है। कांग्रेस संसदीय कार्यवाही को निलंबित करने और अदानी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थान नोटिस जारी कर रही है, लेकिन टीएमसी ने इस मांग से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि अदानी मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बंगाल के लोगों के लिए एक गंभीर मुद्दा नहीं है। टीएमसी का रुख विपक्षी गुट के भीतर बढ़ते विभाजन को उजागर करता है, जिसमें प्रत्येक पार्टी क्षेत्रीय चिंताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टीएमसी के अभिषेक बर्नार्डी ने बंगाल-विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले और वह बकाया जारी करने और मुद्रास्फोटि और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को संबोधित करने में विफलता के लिए सरकार को जवाबदेह बनाएगी। इसी तरह, तृणमूल सांसद काकोली घोष बंशीदार ने संसद के कामकाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी मुद्दे पर संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहती है। कांग्रेस और टीएमसी

के बीच मतभेद इस बात का संकेत है कि विपक्ष को भारतीय गठबंधन के भीतर एकता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कांग्रेस अदानी मामले जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर देती है, वहीं टीएमसी क्षेत्रीय चिंताओं, खासकर बंगाल को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर केंद्रित रहती है। यह विभाजन महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में सरकार के एजेंडे को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की विपक्ष की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

अफीम की अवैध ...

कंगोपोकपी जिले में सबसे ज्यादा 4,454.4 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई। कंगोपोकपी जिले के बाद उखरल जिले में 3,348 एकड़ और चुराचांदपुर जिले में 2,713.8 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल करके अफीम की खेती वाले क्षेत्रों की मैपिंग और आकलन से जुड़ी रिपोर्ट में यह बात सामने आई। योजना विभाग के तहत मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की ओर से अवैध खेती को नष्ट करने की यह कोशिश राज्य पुलिस की *नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर* विंग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य जिले जहां अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई, उनमें टेंगनोपाल जिले में 2,575 एकड़, चबेल में 1,982.5 एकड़ और सेनापति में 1,682 एकड़ की खेती शामिल हैं। इससे पता चला कि 2021-22 में राज्य के 9 जिलों में अफीम की खेती का रकबा 28,598.91 एकड़ था, जो 2023-24 में घटकर महज 11,288.1 एकड़ रह गया। अध्ययन के अनुसार, इस कोशिश का असर यह हुआ कि अफीम की अवैध खेती में गिरावट आने लग गई। साल 2023 और 2024 के बीच अफीम की खेती 2022-23 की तुलना में 32.13 प्रतिशत कम हुई है। मुख्यमंत्री एन बोरिन सिंह ने पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि राज्य सरकार पूर्वोत्तर राज्य में अफीम की अवैध खेती को खत्म करने के अपने संकल्प में प्रतिबद्ध है।

ओम बिरला सफ ...

आते हैं सदन इतने दिनों तक नहीं चलना और जनता के पैसों का इतने दिन तक नुकसान होना ये ठीक नहीं है सबसे इस बात को माना है और विपक्ष की ओर से भी कई मांग रखे गए। उन्होंने कहा कि व्यापार सलाहकार समिति में संविधान पर चर्चा होने का जो प्रस्ताव था उस पर सरकार ने मंजूरी दी है। 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी। पहले लोकसभा में चर्चा करेंगे और 16-17 को राज्यसभा में चर्चा होगी। कल से चर्चा शुरू होगी और कल हम सदन में पहला बिल पास करेंगे। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक के साथ बैठक के लिए आज की बैठक में हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि सदन कल से शुरू होगा। 13-14 को संविधान पर चर्चा होगी। कल समाजवादी पार्टी को संभल पर बोलने की अनुमति दी जाएगी और हम बांग्लादेश पर बोलेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोमोई ने कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि विपक्ष संविधान की 75वीं वषगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर दो दिवसीय चर्चा चाहता है। हम सरकार के औपचारिक बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं, आज उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमें बताया कि जल्द ही तारीख को घोषणा की जाएगी। शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक पर कहा कि यह तय हुआ है कि कल से सदन को ठीक से चलाया जाएगा और फिर 13-14 तारीख को भारत के संविधान पर चर्चा होगी। सभी इस पर सहमत हुए। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेन्द्र यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक पर कहा कि हमारा रुख सरकारवात्मक है लेकिन हम संघर्ष के लोगों पर हो रहे अत्याचार और शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते।

राजनीति में सभी...

राजनीतिक या कारपोरेट जीवन में हो, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा है और व्यक्ति को उनका सामना करने के लिए *जीवन जीने की कला* समझनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि राजनीति अनिष्टपुट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है, जो पार्षद बनता है वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला और विधायक इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री पद नहीं मिल सका। केंद्रीय मंत्री ने इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि जो मंत्री बनता है वह दुखी होता है क्योंकि उसे अच्छा मंत्रालय नहीं मिल पाता और वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाता और मुख्यमंत्री इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि उसने नहीं पाता कि आलाकमान कब उसे पद छोड़ने के लिए कह देगा। आगे उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं और उनका सामना करना तथा आगे बढ़ना ही *जीवन जीने की कला* है। नितिन गडकरी ने सुखी जीवन के लिए अच्छे मानवीय मूल्यों और संस्कारों पर जोर दिया। उन्होंने जीवन जीने और सफल होने के अपने सुनहरे नियमों को साझा करते हुए *व्यक्ति, पार्टी और पार्टी दर्शन* के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

गिनी में फुटबॉल...

स्थानीय मीडिया ने कहा कि यह मैच गिनी के जुंटा नेता मामादी डोम्बोया के सम्मान में आयोजित एक टूर्नामेंट का हिस्सा था, जिन्होंने 2021 में तख्तापलट करके सत्ता हथिया ली थी और खुद को राष्ट्रपति बना लिया था। डोम्बोया ने सितंबर 2021 में राष्ट्रपति अल्फा कांडे को अपदस्थ करके बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने तत्कालीन कर्नल को एक कुलीन बल का प्रभारी बनाया था, जिसका काम राज्य के प्रमुख को ऐसे तख्तापलट से बचाना था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उन्होंने 2024 के अंत तक सत्ता वापस

नागरिक सरकार को सौंपने का वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। सैन्य नेता ने जनवरी में खुद को असाधारण तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया और पिछले महीने उन्होंने खुद को सेना के जनरल के पद पर पदोन्नत किया। डोम्बोया ने असहमति पर चल रही कार्रवाई की अध्यक्षता की है, जिसमें कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया, अदालतों के सामने पेश किया गया या निर्वासन में जाने के लिए मजबूर किया गया। तख्तापलट के तुरंत बाद जुंटा द्वारा तैयार किए गए *संक्रमणकालीन चार्टर* में कहा गया था कि जुंटा का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय या स्थानीय चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन डोम्बोया के समर्थकों ने हाल ही में आगे राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। सितंबर के अंत में, अधिकारियों ने संकेत दिया कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से चुनाव 2025 में आयोजित किए जाएंगे। अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, गिनी एक गरीब देश बना हुआ है। दशकों से इस पर सत्तावादी सरकारों का शासन रहा है। डोम्बोया उन कई अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने 2020 से माली, बुर्किना फासो और नाइजर में सशस्त्री सैन्य नेताओं के साथ पश्चिम अफ्रीका में सत्ता पर कब्जा किया है। गिनी के दक्षिण-पूर्व में स्थित एन जेरेकोर, जहां झड़पें हुईं, की आबादी लगभग 200,000 है।

कर संग्रह में प्रौद्योगिकी...

दौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) हमारी अर्थव्यवस्था को एक समान कर व्यवस्था तथा साझा प्रशासनिक मूल्यों के माध्यम से जोड़ती है। यह सेवा देश के कर प्रशासन में समानता को बढ़ावा देती है। आईआरएस अधिकारी भारत सरकार, व्यापार और विभिन्न राज्यों के कर प्रशासनों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में राष्ट्रीय हित का एजेंडा काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से तय होता है। आईआरएस अधिकारी देश की आर्थिक सीमाओं के संरक्षक हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें हमेशा ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करना होगा। दूसरे देशों के साथ व्यापार सुविधा समझौतों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) देश को आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के संचालन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने आदि के लिए संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनती है। यह राष्ट्र निर्माण में आईआरएस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका को निभाने के लिए आपको ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित करने की आवश्यकता है जो पारदर्शी हों और जवाबदेही सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे याद रखें कि राजस्व केवल देश के राजस्व को बढ़ाने का साधन नहीं है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के नागरिकों द्वारा दिया गया कर देश और लोगों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए, यदि वे अपना काम लगाने और निष्ठा से करेंगे, तो वे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे।

पूर्वोत्तर में ड्रस ...

आरआर्यू का यह शोध भविष्य में ड्रस तस्कारी पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही तस्कारी पर निगरानी रखने, क्षेत्रीय ड्रग मुद्दों को समझने और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने की दिशा में भी सार्थक होगा। आरआर्यू पारसीघाट के निदेशक अविनाश खरेल का कहना है कि आरआर्यू के नारकोटिक्स और ड्रस अध्ययन केंद्र (एसएनडीएफ) का उद्देश्य नशीले पदार्थों और ड्रस से संबंधित गंभीर समस्याओं का समाधान करना है। यह केंद्र अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं के प्रभाव का अध्ययन करेगा। यह अध्ययन पूर्वोत्तर के राज्यों की भौगोलिक स्थिति और ड्रस से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीमा पर ड्रग तस्कारी पर निगरानी रखने, क्षेत्रीय ड्रग मुद्दों को समझने और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्षेत्र से संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे ड्रस की चुनौती से बेहतर ढंग से निपट सकें। उन्होंने बताया कि विवि देश की आंतरिक सुरक्षा और नए तरह के अपराध साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहा है। साइबर अपराधों को लेकर आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए कई राज्यों पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। दरअसल, पूर्वोत्तर भारत को प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। शांत परहाड़ियां और बहती नदियों के बीच ड्रस की काली छाया युवाओं के भविष्य को निगल रही है। आज यहाँ ड्रस, नारकोटिक्स और डोपिंग की समस्या गंभीर चुनौती बन गई है।

अब दलित प्रेरणा ...

किसानों के आंदोलन को लेकर अलर्ट पर है। किसानों के आंदोलन के चलते यहां पर लंबा जाम लग गया है। इससे लोग खासे से परेशान हैं। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस इसकी ड्रोन से निगरानी कर रही है। अगर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर फिलहाल दिल्ली कूच करने के प्लान पर ब्रेक लगा दिया है। किसान अब दलित प्रेरणा स्थल पर ही अपना आंदोलन करेंगे। किसानों ने सड़क खाली करने का भी फैसला किया है। किसानों के दिल्ली कूच में ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डरों पर भारी सख्खा में पुलिस बल और आरएफएस टीम को तैनात किया गया है। सभी किसान महामाया फ्लाइटओवर के पास एकजुट हो गए हैं। किसानों को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है।

असम में 36 करोड़ का याबा टैबलेट बरामद



कछार (हिंस)। असम पुलिस ने 36 करोड़ रुपए मूल्य के याबा टैबलेट जब्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर कछार पुलिस ने सोमवार को सिलचर में एक विशेष अभियान चलाया। जिसमें दो वाहनों को रोका गया और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान 12 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें 1,20,000 याबा टैबलेट थे, जिनकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के प्रति उनके अथक समर्पण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने असम पुलिस को बधाई दी है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

गुवाहाटी (हिंस)। ग्लोबल बंगाली एक्शन टीम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के माध्यम से बांग्लादेश में संभावित मानवाधिकार संकट की ओर आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्लोबल बंगाली एक्शन टीम की ओर से पिनाकी धर ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को बांग्लादेश में संभावित मानवाधिकार संकट से संबंधित मामलों को ध्यान में लाने के लिए लिखा है कि बांग्लादेशी हिंदु स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आज सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक बांग्लादेश में बिजली और इंटरनेट बंद होने की बहुत अधिक संभावना है। इस स्थिति ने हिंदू बांग्लादेशी समुदाय की सुरक्षा और



भलाई के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हालांकि, इन रिपोर्टों की प्रामाणिकता की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हमारी खुफिया एजेंसियां सतर्क रहें और किसी भी संभावित मुकसान को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। संगठन ने अनुरोध किया है कि संयुक्त राष्ट्र इस स्थिति से निपटने और किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। यह आवश्यक है कि हिंदू बांग्लादेशी समुदाय के अधिकारों और सम्मान को रक्षा के लिए सरकार काम करे।

बोकाखात में जंगली हाथी के हमले में एक की मौत

गोलाघाट (हिंस)। बोकाखात में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुखद घटना बोकाखात सम जिले में बरजुरी बस्ती के बोल लाइन में हुई। बरजुरी बस्ती निवासी हीरालाल गोआला (38, भुटका) की घटनास्थल पर ही जंगली हाथी के हमले से मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से निकलने वाले जंगली हाथी अक्सर क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। घटना के बाद, स्थानीय लोग बाहर आए और जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़ दिया और वन विभाग को सूचित किया। लेकिन, लोगों ने वन विभाग के बहुत देर से पहुंचने को लेकर नाराजगी जाहिर की। बोकाखात पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साई भीड़ को समझा नहीं सकी। बाद में दंडाधिकारी के पहुंचने पर लोगों ने मृतक का शव पुलिस के हवाले किया।

मुख्यमंत्री ने दी भाजपा अध्यक्ष नड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं



गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि हमारे आधुनिक अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सरल और व्यावहारिक स्वभाव ने उन्हें कार्यकर्ताओं का प्रिय बना दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी में उनके नेतृत्व और संगठन को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत के जन आरोग्य के प्रयासों को उनके समृद्ध प्रशासनिक अनुभव से बहुत लाभ हुआ है। मां कामाख्या और श्रीमंत शंकरदेव से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं।

प्रोजेक्ट इनरोड के तहत पूर्वोत्तर में 1.25 लाख हेक्टेर प्राकृतिक रबर का रोपण पूरा किया गया

गुवाहाटी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनरोड (इनरोड-इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट) परियोजना के तहत पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर रोपण का काम पूरा हो गया है। परियोजना के पहले चार वर्षों में पूर्वोत्तर के 94 जिलों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 125272 हेक्टेर क्षेत्र को नए प्राकृतिक रबर रोपण के अंतर्गत लाया गया है। यह चार वर्षों की अवधि में देश में अब तक किए गए सबसे अधिक प्राकृतिक रबर रोपणों में से एक है। इनरोड कार्यक्रम पहला है और दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें टायर उद्योग सीधे रबर प्लांटेशन के विकास में योगदान दे रहा है। इस परियोजना में पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में 200,000 हेक्टेर रबर प्लांटेशन का विकास शामिल है, जिसे ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) के 4 टायर मैनुफैक्चरर्स सदस्यों अपोलो, सीएट, जेके और एमआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन रबर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा



किया जा रहा है। राजीव बुधराजा, महानिदेशक, एटीएमए ने इनरोड के 4 वर्ष पूरे होने पर कहा। चुनौतियों के बावजूद इनरोड परियोजना के तहत पहले चार वर्षों के लिए पौधरोपण लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत हासिल किया गया है। पौधरोपण क्षेत्रों के विस्तार के अलावा परियोजना ने स्थानीय नर्सरियों को मजबूत करने और उत्पादक क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है—जो टायर कंपनियों और भारतीय रबर बोर्ड के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है। परियोजना के पिछले

चार वर्षों के दौरान रिकॉर्ड 5.3 करोड़ रोपण सामग्री वितरित की गई है। परियोजना ने नामित राज्यों में संसाधन से वंचित आबादी तक पहुंच बनाई है क्योंकि एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को इस परियोजना में शामिल किया जा रहा है। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना के 2.5 लाख लाभार्थियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए तैयार है। इनरोड परियोजना के शुरू होने से पहले भारत में प्राकृतिक रबर रोपण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पूर्वोत्तर का हिस्सा 23व था। इनरोड परियोजना के तहत अतिरिक्त 2 लाख हेक्टेर में रोपण विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अनुमान है कि पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा बढकर 38 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में पूर्वोत्तर का हिस्सा वर्तमान 16 प्रतिशत से बढकर 32 प्रतिशत हो जाएगा। बुधराजा ने कहा कि जैसे-जैसे रोपण एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंचता है, परियोजना का अगला घटक बुनियादी ढांचे का विकास और रबर उत्पादकों के बीच नई प्रथाओं का प्रसार है।

चोरी की सात बाइक के साथ तीन गिरफ्तार



गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की जालुकबारी पुलिस ने बाइक चोरी मामले में तीन चोर को मानकाचर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि जालुकबारी पुलिस आउट पोस्ट की एक टीम ने दक्षिण सालमारा मानकाचर जिले के मानकाचर से स्थानीय पुलिस की मदद से सात चोरी की बाइक बरामद किया है, जो गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों से चोरी की गई थीं। टीम ने बाइक चोरी के इन मामलों में तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बाइक चोरों की पहचान सुक्कर, दक्षिण सालमारा के अनारुल इस्लाम (28), फुलबारी, मेघालय के राजू मंडल (22) और पलाशबाड़ी के रबीउल इस्लाम के रूप में की गई है। पुलिस पहले से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार तीनों चोरों से सघन पूछताछ कर रही है।

गुवाहाटी में दो चोर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की पानबाजार पुलिस ने चोरी मामले में दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान एक चोरी के मामले में दो चोर को गिरफ्तार किया है। एक दुकान से चोरी मामले में रातुल दास (होजाई) और विश्वजीत गड़ (बोकाजान) को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों चोरों के पास से चोरी की गई उन 69 पैकेट सिगरेट बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों चोरों ने बताया कि लमडिंगा में एक दुकान में प्रवेश कर दोनों ने चोरी की वारदात की अंजाम दिया था। घटना के संबंध में पान बाजार पुलिस लमडिंगा पुलिस को जानकारी दी है। वहीं, पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों चोरों से सघन पूछताछ कर रही है।

साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम



गुवाहाटी। तेरापथ प्रोफेशनल फोरम (टीपीएफ), गुवाहाटी द्वारा रिवार को स्थानीय तेरापथ धर्मस्थल में प्रातः 11 बजे से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नमस्कार महामंत्र से किया गया। तत्पश्चात टीपीएफ गुवाहाटी के अध्यक्ष पंकज भूरा ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें।

इसके लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित दीपक दास, एसीपी साइबर क्राइम, असम एवं राजीव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सिस बैंक लि. एंड रिटेल ब्रांच बैंकिंग हेड विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। इस अवसर पर अतिथियों का टीपीएफ एवं तेरापथी सभा द्वारा असमिया फुलाम गामोछा एवं मोमों से स्वागत-अभिन्दन किया गया। इस मौके पर दीपक दास ने साइबर फ्राड को पहचानने के तरीके, अपने व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी की सुरक्षा एवं परिवार को डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं डिजिटल अरेस्ट आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही राजीव शर्मा ने महिलाओं, गृहणियों एवं बुजुर्गों को डिजिटल सुरक्षा में सशक्त बनाने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कार्यशाला का कुशल संचालन कार्यक्रम संयोजक रवि बोरड़ ने किया तथा उन्होंने भी साइबर क्राइम के बारे में अपने विचारों से सभी को अवगत कराया। इस कार्यशाला के आयोजन में अरिहंत गुलगुलिया, मुकेश पिंचा, विशेष सुरणा आदि का विशेष सहयोग रहा। इस आशय की जानकारी टीपीएफ के सहमंत्री मुदित गोलछा ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

बोकाजान में सड़क दुर्घटना में एक की मौत

कार्बी आंग्लोंग (हिंस)। बोकाजान में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि बोकाजान के हातीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर एक ऑटोरिक्षा (एएस-09एसी-9409) और मोटरसाइकिल (एएस-09के-2284) के बीच आमने-सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक बाइक सवार की पहचान बोकाजान थाना अंतर्गत सरुमथी निवासी रोहन तिमंग के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना में घायल ऑटो रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

एनसीसी कैडेट के लिए प्रेरक व्याख्यान का आयोजन

विश्वनाथ। असम दिवस के शुभ अवसर पर, 5 असम एनसीसी बटालियन के तहत दक्षिण नागशंकर हाइ स्कूल के एनसीसी टूरुप ने आज एनसीसी कैडेटों के लिए एक प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया। दिन भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 5 असम बटालियन, एनसीसी के कर्मांडिंग ऑफिसर कर्नल अब्राहम एन द्वारा एनसीसी ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसके बाद स्कूल के एनसीसी कैडेटों द्वारा मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। खुले सत्र की शुरुआत सतिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी त्रिलोचन दास द्वारा सुकफा के चित्र के सामने दीपक की रोशनी और स्कूल के प्रधानाध्यापक बल्लाव चापागाड़ द्वारा पुष्पजलि अर्पण करने के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में कैडेटों को संबोधित करते हुए कर्नल अब्राहम ने असम दिवस के महत्व और इस विशेष दिन के पालन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एनसीसी की भूमिका के बारे में बताया और कैडेटों से वर्दी सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने सरसख बलों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया और एनसीसी कैडेटों, प्रमाणपत्र धारकों के करियर विकल्पों के लाभों के बारे में संक्षेप में बताया।



प्रेरक सत्र को सुटिया पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी त्रिलोचन दास ने सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधित किया, जिन्होंने एनसीसी की रक्षा क्षेत्र की दूसरी पंक्ति के रूप में बताया और उन्हें अपने करियर विकल्प के रूप में वर्दी सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सत्र को जूनियर कमीशन ऑफिसर (जेसीओ) सुबेदार प्रेम कुमार ने भी संबोधित किया, जिन्होंने कारगिल युद्ध के अपने अद्भुत अनुभव को साझा किया और कैडेटों को अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने और किसी भी परिस्थिति में हार न मानने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले, स्कूल के प्रधानाध्यापक बल्लाव चापागाड़ ने स्वागत भाषण दिया, जबकि स्कूल के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी अंजन बासकोटा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। पूरे सत्र का संचालन विद्यालय की सहायक अध्यापिका मीना थापा ने किया। इस कार्यक्रम में लीला कान्त शर्मा, भवानी शर्मा, नारद उपाध्याय, अरुण बरुवा, होमनाथ डकाल, मुनिराज शर्मा शिक्षकों के साथ एनसीसी कैडेट, पूर्व कैडेट और स्कूल के छात्र उपस्थित थे।

काजीरंगा में मनाया गया केंद्रीय चुकाफा दिवस

काजीरंगा (हिंस)। चुकाफा दिवस काजीरंगा में ऑल टाई अहोम स्टूडेंट्स यूनियन (अटयू) की केंद्रीय समिति की पहल पर, गोलाघाट जिला समिति और काजीरंगा क्षेत्रीय समिति के तत्वावधान में मनाया सोमवार को मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने चुकाफा दिवस के मौके पर मनाये जानेवाले असम दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। पूरे असम में परमैराधन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम मनाये जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण, मैदाम तर्पण, दीप प्रज्वलन आदि के साथ हुई। गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक खुली बैठक आयोजित की गई। वहीं, सांस्कृतिक संस्था का मुख्य अकर्षण असम की लोकप्रिय गायिका कुसुम कैलाश के गीत रही। इस बीच, असम दिवस पर, ताई अहोम छत्र संघ ने सखर से आदिवासीकरण की मांग की। आयोजकों ने यह भी मांग की है कि असम सखर द्वारा हर दो साल पर दिया जाने वाला चुकाफा पुरस्कार हर साल दिया जाए।

संस्कृत भारतीय विश्वनाथ जिले का वार्षिक आम सभा आयोजित

सभा में नई समिति गठित
विश्वनाथ। विश्वनाथ चारिआलि शहर के पुलिस चौघरे पर स्थित शांति निवास भवन के सभागार में आज प्रातः 11 बजे संस्कृत भारती का वार्षिक सभा का आयोजन किया गया जिसका अध्यक्षता विश्वनाथ जिला समिति के अध्यक्ष लोकनाथ शास्त्री जी ने किया। इस मौके पर संस्कृत भारती के परामर्शदाता एवं समाजसेवी प्रभुनाथ सिंह, मुख्य अतिथि तथा निरीक्षक के रूप में संस्कृत भारती के पूर्वोत्तर भारत के संगठन मंत्री मोहन कण्ठन, संस्कृत भारती उत्तर पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष नारद उपाध्याय, सह मंत्री राजेन आचार्य आदि संस्कृत विद्वान उपस्थित थे। विशेष अतिथियों को मंचासीन कराया गया। इसके बाद अतिथियों को फुलाम गामोछा से स्वागत किया गया। इसके बाद जिला सचिव डॉ. दिपेन भराली ने उद्देश्य व्याख्या की। इसके बाद सचिव ने अध्यक्ष के आदेश अनुसार पूर्व में किए गए कार्यविवरण का प्रतिवेदन पाठ किया। इसके बाद प्रतिवेदन को सभा में गृहित किया गया। तत्पश्चात पुरानी समिति को भंग कर नई समिति की गठन किया गया। जिला समिति गठन के पूर्व समारदलनी, विश्वनाथ नगर समिति, गहरुप समिति, गमिरि और छयदुवार समिति का भी आज के सभा में गठित किया गया। विश्वनाथ नगर शाखा के अध्यक्ष सुशिल दास, उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप गुप्ता, सचिव विनोद गुप्ता को प्रदान किया गया है। इसके



बाद विश्वनाथ-जिला-शाखा के अध्यक्ष हितेश्वर दास तथा सचिव/मंत्री नारायण अधिकारी के साथ में 12 लोगों के नया समिति निर्माण किया। उपस्थित संस्कृत प्रेमी व्यक्तियों ने अपने वक्तव्य में संस्कृत भाषा के ऊपर काम करने पर बल दिया। सभाध्यक्ष लोकनाथ शास्त्री ने सभी का आभार जताते हुए सभी नई समिति के पदाधिकारीगण को शुभकामनाएं दी और संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। सभाध्यक्ष और मंचासीन अतिथियों ने नई जिला समिति के अध्यक्ष को दस्तावेज सहित फाइल अर्पण की। कल्याण गंज और भारत माता की जयघोष के साथ मंत्रामय सभा भंग की गई। सभा में संस्कृत प्रेमी तथा विश्वनाथ महाविद्यालय के अध्यापक तारा महंत, सेवानिवृत्त मैजिस्ट्रेट (दंडाधीश) हितेश्वर दास, शिक्षक संतोष कुमार महतो और प्रायः 40 संस्कृत अनुसूचिता उपस्थित थे।

नकली नोट के साथ तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की दिसपुर थाना क्षेत्र इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स असम (एसटीएफ) की टीम ने एक अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने सोमवार को बताया कि दिसपुर थाना क्षेत्र के खानापाड़ा इलाके में स्थित रिचर्व गेट के पास चलाए गए इस अभियान के दौरान पांच सौ रुपए के 2,99,500 रुपए नकली भारत मुद्रा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजीव रांगपी (33) के रूप में की गई है। जो पश्चिम कार्बी आंग्लोंग जिला का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी के पास से नकली नोट के अलावा एक मोबाइल फोन जब्त किया है। गुवाहाटी के गीला नगर इलाके में रहकर राजीव नकली नोट का अवैध कारोबार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी के पास से जब्त की गई नकली नोट एसटीएफ ने दिसपुर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास के साथ विधायक भवेश ने सभा को संबोधित किया



रंगिया (विभास)। पिछले 40 वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए आज इसका आधिकारिक शिलान्यास किया गया। रंगिया के विधायक तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एकादी और दक्षिणरंगिया को जोड़ने वाली बरोलिया नदी पर पुल के निर्माण कार्य का आधिकारिक रूप से शिलान्यास किया। बताया गया है कि यह पुल 36 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। विधायक भवेश कलिता ने उम्मीद जताई कि नए साल के मार्च महीने तक नया पुल लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने एक विशाल जनसभा एवं योगदान कार्यक्रम को संबोधित किया। बैठक में सैकड़ों कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और आदर्शों से आकर्षित होकर भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक कलिता ने सभी का स्वागत किया।

सुखबीर बादल व सुखदेव ढींढसा बनेंगे गुरुघर के चौकीदार, पूर्व अकाली मंत्री करेंगे शौचालय साफ

चंडीगढ़ (हिंस)। श्री अकाल तख्त साहिब के जय्येदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष एवं तत्कालीन पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा को सेवादार का चोला पहनकर दरबार साहिब समेत विभिन्न गुरुद्वारों के आगे चौकीदारी करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त जय्येदार श्री अकाल तख्त साहिब ने बादल सरकार में सत्ता में भागीदार रहे नेताओं को श्री दरबार साहब में बने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करने के आदेश जारी किए हैं। सभी अकाली नेताओं को यह सजा 3 दिसंबर से शुरू होगी। खास बात यह है कि इस सजा के दौरान सुखबीर सिंह बादल समेत सभी नेता अपने गले में तोषी की तख्ती पहन कर सेवा करेंगे। श्री दरबार साहब के इतिहास में करीब 40 वर्ष बाद इस प्रकार की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त जय्येदार सब ने सभी अकाली नेताओं को श्री दरबार साहब में बने लंगर हॉल में जाकर बर्तन साफ करने तक की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त सभी नेता एक घंटा कीर्तन सुनने एवं श्री सुखमणि साहब का पाठ करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अकाली नेताओं, जिनमें आदेश प्रताप



कैरो, गुलजार सिंह रणीके, परमिंदर सिंह ढींढसा, जनमेजा सिंह सेखों, बिक्रम मजौठिया, सोहन सिंह ठंडल, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखाड़ा, शरणजीत हिल्लो, डॉ. दलजीत सिंह चीमा, बीबी जगीर कौर, बीबी उषादेवजीत कौर, सरवन सिंह फिल्लौर, हीरा सिंह गाडबिया, मनप्रीत बादल के अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम शामिल हैं, जिन्हें पांच दिन तक बाथरूम साफ करने से लेकर लंगर हॉल में बर्तन साफ करने एवं एक घंटा कीर्तन सुनने और उसके बाद श्री सुखमणि साहब का पाठ करने के आदेश जारी किए गए हैं। जय्येदार श्री अकाल

तख्त साहब ने स्पष्ट किया कि यह सभी अकाली नेता पांचों तख्तीं समेत श्री फतेहगढ़ साहब में भी जाकर यह दो दिन सेवा करेंगे और इसके उपरांत यह नेता अपने गांव या फिर हल्के में किसी भी गुरुघर में जाकर एक-एक घंटा सेवा करेंगे। जय्येदार साहब ने स्पष्ट किया यह सभी अकाली नेता अपने गले में सेवादार की तख्ती डालकर सेवा करेंगे। इसके अतिरिक्त जय्येदार श्री अकाल तख्त साहब ने अकाली दल में मेबरशिप के लिए भी एक कमेटी का गठन किया है जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, इकबाल सिंह

बुदा, गुरुप्रताप सिंह बडाला, मनप्रीत सिंह एयाली, संता सिंह उमेदपुरी एवं श्री अकाल तख्त की ओर से बीबी सतवंत कौर शामिल होंगे। जय्येदार श्री अकाल तख्त साहब पर 2007-2017 के दौरान बादल सरकार में रहे मंत्रियों, 2015 की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्यों और मौजूदा अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी तथा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को भी तलब किया गया था। यह विवाद एक जुलाई को उस समय शुरू हुआ जब अकाली दल से बागी हुए कुछ नेताओं ने बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों में सहयोग करने पर अकाल तख्त जय्येदार को माफीनामा सौंपा। इसके बाद 14 जुलाई को अकाल तख्त साहिब पर पांचों तख्तीं के जय्येदारों को बैठक हुई। जिसमें 15 दिन के अंदर सुखबीर बादल से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके बाद 24 जुलाई को सुखबीर बादल ने बंद लिफाफे में श्री अकाल तख्त साहिब को स्पष्टीकरण दिया था। सुखबीर बादल के स्पष्टीकरण को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी। जिसके बाद पांच अगस्त को सुखबीर बादल का स्पष्टीकरण सार्वजनिक किया गया।

के खजाने से इशतहार जारी किए गए उनकी भरपाई सुखबीर सिंह बादल समेत अन्य नेता करेंगे। सोमवार को अकाल तख्त साहिब पर हुई बैठक के दौरान सुखबीर बादल के अलावा 2007-2017 के दौरान बादल सरकार में रहे मंत्रियों, 2015 की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्यों और मौजूदा अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी तथा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को भी तलब किया गया था। यह विवाद एक जुलाई को उस समय शुरू हुआ जब अकाली दल से बागी हुए कुछ नेताओं ने बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों में सहयोग करने पर अकाल तख्त जय्येदार को माफीनामा सौंपा। इसके बाद 14 जुलाई को अकाल तख्त साहिब पर पांचों तख्तीं के जय्येदारों को बैठक हुई। जिसमें 15 दिन के अंदर सुखबीर बादल से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके बाद 24 जुलाई को सुखबीर बादल ने बंद लिफाफे में श्री अकाल तख्त साहिब को स्पष्टीकरण दिया था। सुखबीर बादल के स्पष्टीकरण को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी। जिसके बाद पांच अगस्त को सुखबीर बादल का स्पष्टीकरण सार्वजनिक किया गया।

हरियाणा सरकार ने बदले 44 आईएसएस सुमिता मिश्रा बनीं गृह सचिव

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 44 आईएसएस अधिकारियों के नियुक्ति एवं स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) रैंक के तीन वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों के बीच वरिष्ठता के विवाद को भी सरकार ने एक तरह से निपटा दिया है। 1990 बैच के आईएसएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी ने इसी बैच के सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा को वरिष्ठता को चुनौती दी हुई है। हालांकि सरकार की तबादला सूची में सबसे पहले नंबर पर सुधीर राजपाल, फिर सुमिता मिश्रा और तीसरे नंबर पर अनुराग रस्तोगी का नाम है। ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव के बाद प्रोटीकोल में दूसरे नंबर की पोस्ट यानी एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी अनुराग रस्तोगी को सौंपी है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी अनुराग रस्तोगी के पास पहले की तरह बनी रहेगी। अहम बात यह है कि प्रदेश में करीब नौ माह बाद राज्य को स्थाई एफसीआर मिला है। टीवीएसएन प्रसाद के बाद से एफसीआर के नियुक्ति आदेश ही जारी नहीं हुए। अब अनुराग रस्तोगी स्थाई एफसीआर होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल को भी हेवीवेट किया गया है। उन्हें पूरा स्वास्थ्य महकमा सौंपा गया है। अब स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ विधिका शिक्षा एवं अनुसंधान के अलावा आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सुधीर राजपाल होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा को गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है। अभी तक अनुराग रस्तोगी के पास होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी सौंपा गया है। लंबे समय से खुड्डाइन चल रहे 1991 बैच के आईएसएस अशोका को रिटायरमेंट के नजदीक सरकारी मुख्यधारा में ले आई है। अभी तक वे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। अब सरकार ने परिवहन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क को परिवहन विभाग से हटा दिया गया है। परिवहन मंत्रालय कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पास है। विज और खेमका की पुरानी ट्युनिंग है।

चंडीगढ़ : विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकारों ने दी शानदार नृत्यों की प्रस्तुति

चंडीगढ़ (हिंस)। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर जहां एक ओर शिल्पकारों की अनोखी शिल्पकला को देखकर पर्यटक आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के नृत्यों के लम्हों को पर्यटक अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। इन शिल्पकारों ने महोत्सव में पहुंचकर ब्रह्मसरोवर के तट की फिजा को बदलने का काम किया है। महोत्सव में पहुंचने वाला हर पर्यटक इस महोत्सव के इन यादगार लम्हों को जी रहा है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इन कलाकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों की लोक संस्कृति को अपने-अपने राज्यों की वेशभूषा में दिखाने



का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं इन कलाकारों के साथ ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर पर्यटक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने-अपने राज्य की

कला का बखूबी बखान कर रहा है। कलाकारों का कहना है कि आज के आधुनिक जमाने में भी उन्होंने अपनी कला को जिंदा रखा है। अपनी कला को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। विदेशों की धरती पर भी उनकी कला ने उनका नाम रोशन किया है। महोत्सव में कलाकारों द्वारा उत्तराखंड के छपेली, पंजाब के गतका, हिमाचल प्रदेश के गद्दी नाटी, राजस्थान के बहरसुपे, पंजाब के बाजीगर, राजस्थान के लहंगा/मंगनीया व दिल्ली के भवई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। यह कलाकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर 15 दिसंबर तक लोगों को अपने-अपने प्रदेशों की लोक कला के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस महोत्सव पर आने के लिए देश का प्रत्येक कलाकार आतुर रहता है।

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने सोमवार को मुख्यमंत्री और सदन के नेता स. भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आआप) पंजाब के प्रधान एवं रोजगार उत्पत्ति, निपुण विकास मंत्री अमन अरोड़ा की उपस्थिति में चम्बेवाल, डेरा बाबा नानक और गिहड़वाहा विधानसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पंजाब विधानसभा के सदस्य लाउंज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर चम्बेवाल से डॉ. इशंक कुमार चम्बेवाल, डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा और गिहड़वाहा से हरदीप सिंह डिंभी दिल्ली के विधायक के तौर पर शपथ ली।

विवादित बयान पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की बड़ी मुश्किलें, आईजी ने लिया संज्ञान

जोधपुर (हिंस)। राजस्थान कांग्रेस के युवा प्रदेशाध्यक्ष व संगरिया (हनुमानगढ़) विधायक अभिमन्यु पुनिया के विवादित बयान के बाद मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने संज्ञात लेते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को कानूनी राय लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पर बाड़मेर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है। दरअसल राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया (हनुमानगढ़) से विधायक शनिवार को बाटमेर जिले के सेडवा में नौकरी दो-नशा नहीं अभियान के तहत बाइक निकाली थी। इसके बाद जनसभा को कार्यकर्ताओं से कहा है कि अधिकारी अगर ज्यादा परेशान करे तो नौजवान मजबूत है, अधिकारी को ठोक दिया करो। फिर हम निपट लेंगे।



उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी साथी या आम जनता के साथ अन्याय हुआ तो युथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर हर जगह जाएंगे। तहसील, उपखंड, जिला स्तर और आईजी का भी घेराव करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। विधायक पुनिया का बयान आने के बाद जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने संज्ञान लेते हुए बाड़मेर एसपी को कानूनी सलाह लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

स्थापना दिवस पर ऊंट की सफारी निकालकर बीएसएफ ने दिया एकता और भाईचारे का संदेश



रिंगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की सफारी बीकानेर के मुख्य मार्गों से निकाली गई और स्थानीय लोगों को कैमल सफारी के माध्यम से विभिन्नता में एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। लूथरा उपमहानिरीक्षक ने सभी कार्मिकों के साथ केक काट कर 60 वें स्थापना दिवस की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर के निर्देशानुसार आज क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर में वृक्षारोपण आयोजित किया गया तत्पश्चात

कार्मिकों के लिए बड़े खाने का आयोजित किया गया। इस दिवस को सीमा सुरक्षा बल के जवानों, उनके परिवार जनों ने बड़ी धूम धाम से मनाया। लूथरा उपमहानिरीक्षक ने 60 वें स्थापना दिवस की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर सुब्रतो राय कमांडेंट सक्किया के अलावा क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर एवं 124 वी वाहिनी के अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे।

जैन समाज ने महावीर भवन को तोड़ने की धमकी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा (हिंस)। भीलवाड़ा जिले के आसिंद क्षेत्र के कालियास गांव में 80 वर्षों से अधिक पुराने जैन उपाश्रय महावीर भवन को तोड़ने की धमकी के विरोध में जैन समाज ने भीलवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध में भीलवाड़ा सकल जैन समाज ने कालियास जैन समाज के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन समाज ने उपाश्रय को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने और इसे संरक्षित करने की मांग की। कालियास स्थित महावीर भवन जैन उपाश्रय का इतिहास 80 वर्षों से अधिक पुराना है। यह भवन जैन साधु-संतों के लिए विश्राम स्थल होने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए उपयोगी स्थान है। कुछ समय पूर्व इसका जीर्णोद्धार किया गया था। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यह भवन किसी विशेष पंथ या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न पंथों और परंपराओं के संतों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा, आसपास के गांवों में साधु-संतों के ठहरने की अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण इस उपाश्रय



का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैन समाज का आरोप है कि कालियास गांव के सरपंच शक्ति सिंह चुण्डावत ने मौखिक रूप से जैन समाज के कुछ सदस्यों को यह धमकी दी है कि महावीर भवन को तोड़ा जाएगा। इस धमकी को जैन समाज ने अपने धर्म और सांस्कृतिक धरोहर के लिए गंभीर खतरा बताया है। महावीर भवन को बचाने की मांग को लेकर भीलवाड़ा जैन

समाज के सैकड़ों लोग मुखर्जी उद्यान में एकत्र हुए और इसके बाद कलकट्टे तक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व श्री जैन श्वेतांबर संघ कालियास के अध्यक्ष नीरतमल डूंगरवाल ने किया। प्रदर्शनकारियों ने महावीर भवन को संरक्षित करने और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जैन एकता जिंदाबाद और भगवान महावीर की जय के नारों से माहौल गुंज उठा। जैन समाज ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन देकर कालियास उपाश्रय को किसी भी प्रकार की क्षति न होने देने के निर्देश देने की मांग की। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान भीलवाड़ा जैन समाज के विभिन्न संघों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। इनमें शांतिभवन श्रीसंघ भीलवाड़ा के अध्यक्ष महेंद्र छाजेड़, मंत्री सुशील चपलोट, तैरापंथ सभा के अध्यक्ष जसराज चौराड़ा, उपाध्यक्ष निर्मल गोखरू और जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ के संरक्षक तेजसिंह नाहर प्रमुख रहे।

देश निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को केंद्र सरकार ने दिया सम्मान : केंद्रीय मंत्री मेघवाल

बीकानेर (हिंस)। हमारा संविधान-हमारा गौरव नामक कार्यक्रम का यहां रायसर पर वर्ष 2015 में देश को संविधान दिवस की सौगात दी। मादी के निर्देश पर संविधान अंगीकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष सात पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे देश के नागरिकों को संविधान और बाबा साहेब के विराट व्यक्तित्व की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि देश



का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। साथ ही कर्तव्यों की पालना की सीख देता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने दुनिया के अलग-अलग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। यह हमें एक सूत्र में बांधने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया और शिक्षित बनों, संगठित रहो और आगे बढ़ो का संदेश दिया।

श्रीद्वारागढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि संविधान हमें एकता का मंत्र देता है। यह कानून के दायरे में रहने की सीख देता है। संविधान से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को इसकी विशेषताओं की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेघवाल के नेतृत्व में गत पंद्रह वर्षों में बीकानेर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने कहा कि हमारा संविधान हमें कर्तव्य

पथ पर आगे बढ़ने की सीख देता है। यह देशवासियों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। भाजपा अध्यक्ष विजय आचार्य ने कहा कि हमें संविधान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उन्होंने संविधान निर्माण से जुड़े तथ्यों के बारे में बताया। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की धर्मपत्नी शांता गोदारा ने भी विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता रविशेखर मेघवाल ने बताया कि बाबा साहेब ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। डॉ.

बांग्लादेशी हिंदूओं के समर्थन में आंदोलन करेगी सनातन संघर्ष समिति

सहरसा (हिंस)। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध भारत का सर्व सनातन समाज आवाज उठाएगा। इस हेतु सोमवार को पंचवटी में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ईजीनियर रामेश्वर ठाकुर ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को विशेष निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में प्रजातंत्र खतरे में है। कट्टरपंथियों द्वारा भारत के विरुद्ध भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। साथ हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर कहर ढाया जा रहा है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी लेकिन धीरे-धीरे वहां कट्टरपंथी हावी होते गया जिसके कारण वहां की हिंदू आबादी घटती जा रही है। इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर



सनातन संघर्ष समिति 7 दिसंबर को आम सभा का आयोजन कर मानवाधिकार की रक्षा करने एवं प्रजातंत्र की स्थापना को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वही 10 दिसंबर को सभी जिलों में प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस मौके पर उमाशंकर खां, प्रोफेसर कामाख्या नारायण सिंह, प्रिण्ट मिश्रा, पमपम सिंह, आशीष टिंडू, शिवभूषण सिंह, संतोष कुमार झा, सुमन झा, सुदीप प्रसाद सिंह, ध्रुव कुमार झा, नवीन मिश्रा, रणधीर भगत, ज्ञान प्रकाश दत्त, डॉ. मुरारी कुमार, दीपक कुमार, मनीष कुमार, कृष्णकांत कुमार, विजय बंसत सहित अन्य मौजूद थे।



प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ खुला, निवेशक 4 दिसंबर तक लगा सकेंगे बोली

मुंबई/नई दिल्ली
देश के पहले पंजीकृत लघु और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट का आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) सोमवार को निवेशकों के लिए खुला गया। इस इश्यू के लिए निवेशक 4 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी के शेयर बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 9 दिसंबर को लिस्ट होंगे। प्रॉपर्टी शेयर प्लैटिना, एसएम-रीट (प्रॉपर्टी

शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) ने आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 10 लाख से 10.5 लाख रुपये प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों को इसमें मिनिमम 10 लाख रुपये निवेश करने होंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी की योजना कुल 352.91 करोड़ रुपये जुटाने की है। इसके लिए कंपनी 352.91 करोड़ रुपये के 3,361 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉस सेल (ओएफएस) के जरिए एक भी शेयर नहीं

बेचेंगे।
व्या होता है आईपीओ

जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयरों को लोगों के लिए जारी करती है तो इसे आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) कहते हैं। कंपनी को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी बाजार से कर्ज लेने के बजाय कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर या नए शेयर इश्यू करके पैसा जुटाती है,

जिसके लिए कंपनी आईपीओ लाती है। प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीएसआईटी) के मुताबिक यह आईपीओ पूरी तरह से प्लैटिना यूनिट का नया निगम है। कंपनी इस आईपीओ से प्राप्त धन राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्लैटिना की विशेष इकाई (एसपीवी) द्वारा प्रेस्टीज टेक प्लैटिना की परिस्मिपत्तियों के अधिग्रहण के लिए करेगी, जबकि शेष धन राशि का उपयोग अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

न्यूज़ ब्रीफ

नायका पर शुरू हुई एक और धमाकेदार, कई ब्रांड्स पर मिल रही 50 फीसदी तक की छूट



मुंबई। नायका की पिंक फ्राइडे सेल में दिखाया अपना जादू और अब एक और धमाकेदार सेल के रूप में वापस आ रहा है। यह सेल 2 दिसंबर से शुरू हो गई है जो 4 दिसंबर तक चलेगी और उसमें 50 फीसदी तक की छूट के साथ बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। नायका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, नायका के मोबाइल ऐप पर या फिर नायके के स्टोर पर जाकर आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। पिंक फ्राइडे सेल में चार्लोट टिलबरी, मेक, मेबेललाइन जैसे ब्रांड्स के उत्पादों पर 60 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। इस सेल में ब्यूटी और पर्सनल केयर उत्पाद, फैशन और एक्सेसरीज, होम और किचन उत्पाद और हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स पर भी 50 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। इसमें बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, फ्री शिपिंग और कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है। पिंक फ्राइडे सेल में आपको अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए अगर आपने पिछली सेल में शॉपिंग नहीं की है, तो इस बार का सेल आपके लिए उत्तम अवसर है।

नवंबर में पेट्रोल-डीजल की खपत में बढ़ोतरी, त्योहारी सीजन ने बढ़ाई मांग, नवंबर में सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल की बिक्री में 8.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की



मुंबई (ईएमएस)। भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग नवंबर में बढ़ी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के आंकड़ों से पता चला। अक्टूबर में खपत में गिरावट देखी गई थी, लेकिन नवंबर में त्योहारी सीजन के कारण खपत में सुधार हुआ। पेट्रोल और डीजल की खपत में वृद्धि ने उद्योगों को आशाओं की राह दिखाई। नवंबर में सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल की बिक्री में 8.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल के अंतिम माह से भी अधिक थी। डीजल की बिक्री भी 5.9 फीसदी बढ़कर 72 लाख टन हुई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद, लोगों की मांग में वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था के सुधार का संकेत दे सकती है। डीजल भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन है, जिसका परिवहन और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। पेट्रोल और डीजल की मांग में इस दिशा में हुई वृद्धि देश की आर्थिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकती है।

अशोक लेलैंड की नवंबर में कुल थोक बिक्री बढ़कर 14,137 इकाई हुई, पिछले महीने 12,773 इकाई बिक्री हुई थी



मुंबई। अशोक लेलैंड भारत के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता ने नवंबर माह में अच्छे बिक्री के बारे में रिपोर्ट जारी की है। कंपनी ने बताया कि कुल थोक बिक्री में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसने इस माह में 14,137 इकाई वाहन बेचे। कंपनी के बयान के मुताबिक घरेलू बिक्री में एक असंतुल कारक था और इसमें चार प्रतिशत की कमी देखने को मिली। पिछले महीने 12,773 इकाई बिक्री थी, जबकि अब यह संख्या 13,031 है। मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में आठ प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली, जिससे कंपनी ने 9,176 इकाई वाहन बेचे।

एमराल्ड टायर आईपीओ के माध्यम से जुटाएगी 49.26 करोड़

मुंबई। एमराल्ड टायर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड इस हफ्ते अपनी पहली आईपीओ के माध्यम से 49.26 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने प्राइस बैंड व समेत कई अन्य जानकारियां जारी की हैं। निवेशकों को 5 दिसंबर 2024 से इस आईपीओ में निवेश करने का मौका मिलेगा। यह आईपीओ एनएसई एक्सचेंज पर लिस्ट होगा और इसकी संभावित लिस्टिंग 12 दिसंबर को है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर पर

प्रतियोगी स्थितियों और मुद्रास्फीति के दबावों के कारण विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि सीमित रही

नई दिल्ली

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर नवंबर महीने में 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अनुसार इस दौरान ऑर्डरों में भी वृद्धि देखने को मिली है। प्रतियोगी स्थितियों और मुद्रास्फीति के दबावों के कारण विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि सीमित रही है। एक मासिक सर्वेक्षण में यह खबर सामने आई कि नवंबर में वृद्धि दर 56.5 थी, जो पिछले महीने की तुलना में कुछ कम लग रही थी। एचएसबीसी के एक मुख्य अर्थशास्त्री ने बताया कि इस संकेत के बावजूद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र अभी भी विस्तार की दिशा में है। उन्होंने कहा कि मांग की मजबूती और उत्पादन में विस्तार की दर, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। हालांकि, मूल्य दबाव बढ़ने के कारण उत्पादन वृद्धि में धीमी गति आ रही है। इसके अतिरिक्त, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण और खनन क्षेत्रों की खराब प्रदर्शन के कारण, भारत की आर्थिक वृद्धि दर एक निम्न स्तर पर पहुंच गई है। वस्तु उत्पादकों के मोर्चे पर अच्छी खबर है, क्योंकि अक्टूबर से उनके विक्रय मूल्यों में अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे व्यापक अंतरराष्ट्रीय मांग की दर चार महीनों में सबसे अच्छी रही है। जबकि इस दौरान संकुचन का मामला रहा है, परंतु भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि की दिशा में तेजी जारी है।



वयूआर कोड से रेहड़ी-पटरी वालों को मिलने लगे ऋण, छोटे व्यवसायी अब पांच लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे

नई दिल्ली। भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी एनबीएफसी ने अब छोटे कारोबारियों के लिए एक नया ऋण कार्यक्रम शुरू किया है, जो मधुछूट फिनकोर्प वन के माध्यम से केवल वयूआर कोड का इस्तेमाल करके उनके दैनिक लेनदेन के आधार पर मिलेगा। इस कार्यक्रम के जरिए रेहड़ी-पटरी वालों जैसे छोटे व्यवसायी अब पांच लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। एक बयान के अनुसार यह डिजिटल मंच मधुछूट फिनकोर्प वन के साथ काम करके एमएफएल के ठीक से तैयार किए गए उद्यमों को ऋण प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया में वयूआर-कोड आधारित ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। मधुछूट फिनकोर्प वन के सीईओ ने बताया कि भारत में करीब छह करोड़ अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम हैं, जो देश के रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक हैं। यह नया ऋण कार्यक्रम उन्हें वित्तीय मजबूती और स्थायी वृद्धि के लिए एक नया रास्ता प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल की घोषणा की थी, जिसका मकसद छोटे व्यवसायों के डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर मूल्यांकन करना है। यह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया उत्पाद है, जो उन्हें दैनिक व्यावसायिक विकास के लिए मदद पहुंचाएगा। इस नए ऋण कार्यक्रम के माध्यम से आईएमई को वित्तीय माध्यमों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और देश के अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को विकास का मार्ग दिखाएगा।



प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SWADHI)

देश के आठ शहरों में जुलाई-सितंबर में आवासीय कीमतें 11 प्रतिशत बढ़ी : रिपोर्ट



नई दिल्ली

भारत के आठ प्रमुख शहरों में आवासीय कीमतों में तेजी देखने को मिली, इसकी जानकारी एक नई रिपोर्ट से मिली। रिपोर्ट में जुलाई-सितंबर तिमाही में 11 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गई। एनसीआर में दरें सबसे अधिक बढ़ीं, साथ ही बेंगलूरु में भी तेजी देखी

गई। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आवासीय कीमतें 32 प्रतिशत बढ़कर 11,438 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। इसके बाद बेंगलूरु में 24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि मांग और सकारात्मक बाजार धारणा की वजह से हुई। सलाहकारों का कहना है कि सभी आठ शहरों में आवास की कीमतों में वृद्धि देखी गई।

ट्रेडमार्क मामला : अदालत ने पुणे के रेस्तरां पर बर्गर किंग नाम इस्तेमाल करने से रोका

आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक मानले के लिपटारे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती

मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुणे स्थित एक रेस्तरां के बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने पर स्थगित आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश उस दिन तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी लोकप्रिय बर्गर चेन कंपनी बर्गर किंग कॉर्पोरेशन द्वारा दायर इस मामले में निर्धारित निपटारे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। यह निर्धारित रोक इस आदान-प्रदान को संकेत में डाल देगा, क्योंकि रेस्तरां मालिकों ने इस इस्तेमाल के लिए आमने-सामने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया था। बर्गर किंग कॉर्पोरेशन ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसके मुताबिक बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का निष्पादन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ए. एस. चंद्रकर और न्यायमूर्ति राजेश



पाटिल ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई की जानी चाहिए और समस्त साक्ष्यों का गौर किया जाना चाहिए। तब तक बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल बंद रखने के लिए यह अंतरिम आदेश जारी रखा जा रहा है। यह


मामला आम लोगों के ध्यान में है, क्योंकि यह एक व्यापक ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला है और इसका निपटारा न्यायिक मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। आम नागरिकों को इस मुद्दे पर नजर रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर शुरुआती कारोबार में नौ प्रतिशत चढ़ा

बीएसई पर सूचीबद्ध अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर 1,445 रुपये पर पहुंच गया

नई दिल्ली

अदाणी समूह की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर सोमवार को दिखाई गई बढ़त के साथ कारोबार में करीब नौ प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप बीएसई पर सूचीबद्ध अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर 1,445 रुपये पर पहुंच गया। अदाणी समूह के अन्य कंपनियों के शेयरों में भी वृद्धि दर्ज की गई। अदाणी पोर्ट्स का शेयर दो प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट्स का 1.33 प्रतिशत और एसीसी का एक प्रतिशत बढ़ा। वहीं अदाणी टोटल गैस का शेयर 4.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 774.45 रुपये पर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 4.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 805.60 रुपये पर, अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.38 प्रतिशत बढ़कर



2,428.20 रुपये और अदाणी पावर का शेयर 1.45 प्रतिशत कम होकर 546.50 रुपये पर पहुंचा।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अमेरिका में लगे आरोपों का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि समूह सभी नियमों का पालन कर रहा है और हर हमला समूह को मजबूत बनाता है। अमेरिका के न्याय मंत्रालय और एडवोकेटों ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की अमेरिकी जिला अदालत में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रमुख पदाधिकारियों गौतम अदाणी, सागर अदाणी तथा विनोद जैन के खिलाफ 20 नवंबर 2024 को अभियोग जारी किया था।

एजीईएल पर लगाए गए आरोपों में है कि सौर ऊर्जा बिक्री ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी गई थी। कंपनी ने इसके खिलाफ जवाब देते हुए कहा कि यह आरोप सिर्फ प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश, वायर धोखाधड़ी की साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिनके लिए दंड कम गंभीर होते हैं। समूह का कहना था कि वे हर संभव कदम उठाएंगे ताकि उनकी स्थिति का स्पष्टीकरण हो सके।



जुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने विदाई मैच में नोवाक जोकोविच को हराने के बाद लिया संन्यास

नई दिल्ली

जुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने रविवार को अर्जेन्टीना के ब्यूनस आयर्स में अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक भावनात्मक प्रदर्शन मैच में नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-5 से हराकर पेशेवर टेनिस से विदाई ली।

'द लास्ट चैलेंज' शीर्षक से यह प्रदर्शनी खचाखच भरे पार्क रोका स्टेडियम में आयोजित की गई।

24 बार के मेजर चैंपियन जोकोविच ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता

जो जुआन मार्टिन से प्यार न करता हो...

जीवन में उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि वह एक बेहतरीन इंसान हैं।

पूर्व विश्व नंबर 3 डेल पोत्रो मैच के दौरान कई बार रो पड़े, जिसमें उनकी दोस्त और पूर्व टेनिस खिलाड़ी गैब्रिएला सबातिनी सहित कई हस्तियाँ मौजूद थीं।

डेल पोत्रो 2009 में तब चर्चा में आए जब उस समय के इस किशोर ने सेमीफाइनल और फाइनल में क्रमशः राफेल नडाल और रोजर फेडरर को हराकर यूएस ओपन में

अपना पहला मेजर खिताब जीता था। उन्होंने कुल 22 खिताब जीते, लेकिन कई चोटों के कारण अर्जेन्टीना के इस खिलाड़ी ने अपने नाम पर और ग्रैंड स्लैम नहीं जोड़े। उन्होंने आखिरी बार दो साल पहले टूर-स्टरीय मैच खेला था।

रविवार को 36 वर्षीय डेल पोत्रो ने अपने करियर के कुछ बेहतरीन पलों की समीक्षा एक विशाल स्क्रीन पर की, जिसमें 2012 में लंदन और 2016 में रियो डी जेनेरियो में जीते गए ओलंपिक पदक शामिल हैं। उन्होंने

2016 में अर्जेन्टीना के साथ डेविस कप का खिताब भी जीता।

अर्जेन्टीना के एक शहर टंडिल से ताल्लुक रखने वाले डेल पोत्रो को न केवल फेडरर, नडाल, कार्लोस अल्काराज और गेल मोनफिल्स जैसे टेनिस खिलाड़ियों से बल्कि अर्जेन्टीना के बास्केटबॉल के दिग्गज और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता इमानुएल गिनोबिली और विश्व कप विजेता अर्जेन्टीना के कोच लियोनेल स्कोलोनी से भी एक मार्मिक वीडियो संदेश मिला।

न्यूज़ ब्रीफ

वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुने गए सिफान हसन और लेत्साइल टेबोगो



नई दिल्ली। ओलंपिक चैंपियन सिफान हसन और लेत्साइल टेबोगो को क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। इन दोनों को मोनाको में रविवार को आयोजित विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2024 में प्रशंसकों द्वारा वोट के बाद रात शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने एक आधिकारिक बयान में कहा, एथलेटिक्स के लिए शानदार साल के अंत में, हम अपने विश्व एथलीट्स ऑफ द ईयर की सूची का खुलासा करते हुए बहुत खुश हैं - एथलीटों का यह समूह हमारे खेल का सबसे बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है और इस साल इनसे एथलेटिक प्रदर्शन के मामले में जो संभव है उसे फिर से परिभाषित किया है। हमारे 2024 के दल ने ऊंचाई, गति और दूरी के मामले में नए मानक स्थापित किए हैं, जिसमें छह विश्व रिकॉर्ड और उनके बीच कई ओलंपिक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। मैं अपने सभी पुरस्कार विजेताओं और इन सम्मानों के लिए नामांकित सभी एथलीटों को बधाई देता हूँ, और मैं उन्हें इस वर्ष अपने प्रदर्शन से हम सभी को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हसन और टेबोगो दोनों ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। पेरिस में डच स्टार हसन के पदकों की संख्या में सबसे ऊपर खेलों का अंतिम एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था, जिसमें उन्होंने मैराथन में 2-22:55 समय के ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की। ?यह प्रदर्शन हसन द्वारा 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीतने के मात्र 37 घंटे बाद और फ्रांस की राजधानी में 5000 मीटर में अपने पहले पदक - जो कांस्य भी था - के छह दिन बाद आया परिणामस्वरूप, वह एक ही खेलों में 5000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन में पदक जीतने वाली पहली महिला बनीं, और एमिल जातोपेक के बाद पहली एथलीट बनीं, जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी में सभी तीन पुरुष खिताब जीते थे। टेबोगो ने पेरिस में 200 मीटर जीतकर इतिहास भी रचा, उन्होंने बोत्सवाना के लिए किसी भी खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 19.46 का अप्रतीक्षित रिकॉर्ड बनाया - एक ऐसा समय जिसने उन्हें विश्व की सर्वकालिक सूची में पौचवॉय स्थान दिलाया - और यह प्रदर्शन 100 मीटर फाइनल में उनके छठे स्थान पर रहने के बाद हुआ। वह बोत्सवाना की रजत पदक विजेता पुरुषों की 4x400 मीटर टीम का हिस्सा बने। उन्होंने 2024 में कुल नौ बार 200 मीटर के लिए 20 सेकंड से कम समय लिया, जिसमें उनके ओलंपिक खिताब जीतने के रिकॉर्ड ने शीर्ष स्थान हासिल किया जो इस साल का सबसे तेज प्रदर्शन रहा। अमेरिकी महिला ट्रेक एथलीट मैकलीघलिन-लेदरनेन ने अपने विश्व 400 मीटर बाधा दौड़ के रिकॉर्ड को दो बार सुधारते हुए 50.65 और 50.37 सेकंड का समय लिया और उस स्पर्धा के साथ-साथ 4x400 मीटर में भी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता।

आईएसयू स्पीड स्केटिंग विश्व कप : स्टोल्वा ने जीता चार स्वर्ण पदक



बीजिंग। अमेरिकी प्रतिभाशाली जॉर्डन स्टोल्वा ने रविवार को यहां नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में संपन्न आईएसयू स्पीड स्केटिंग विश्व कप में चार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। पहले दो प्रतियोगिता दिनों में पुरुषों की 500 मीटर, 1,000 मीटर और 1,500 मीटर प्रतियोगिताओं के बाद तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले स्टोल्वा ने दूसरी 500 मीटर दौड़ में 34.39 सेकंड का समय लेकर आइस रिबन में अपना चौथा स्वर्ण जीता। शुक्रवार को पहली दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे नीदरलैंड के जेनिंग डी डू ने 0.08 सेकंड पीछे रहकर एक और रजत पदक अपने नाम किया, जबकि दक्षिण कोरिया के किम जून-हो 34.67 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 120 वर्षीय स्टोल्वा ने सिन्हुआ से कहा, मैं यह जीत हासिल करके और पहले दो विश्व कप में जीत का सिलसिला जारी रखकर बहुत खुश हूँ। उन्होंने पिछले सप्ताह जापान के नागानो में सीजन-ओपनिंग विश्व कप में चार स्वर्ण पदक भी जीते थे। रविवार की जीत ने पिछले सीजन से लेकर अब तक लगातार 12 विश्व कप जीतने के उनके रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया और अमेरिकी खिलाड़ी अभी भी और जीत की तलाश में हैं। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा और तेज होता जाऊंगा, उम्मीद है कि अगले कुछ विश्व कप में मैं और जीतने की कोशिश कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं एक या दो हार जाता हूँ, तो कोई बात नहीं। इस सीजन में अपने लक्ष्य को लेकर स्टोल्वा ने कहा, मैं पिछले दो बार जीते गए तीन खिताबों का बचाव करना चाहूंगा।

पीकेएल-11: पटना पाइरेट्स ने बंगाल वारियर्स को 3 अंक से हराया, प्वाइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया

नोएडा

देवांक (13) और अयान (8) के शानदार खेल की बदौलत तीन बार के चैंपियन पटना पाइरेट्स ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में रविवार रात खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के 88वें मैच में बंगाल वारियर्स को 38-35 से हराकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। पटना को 15 मैचों में नौवीं जीत मिली है। देवांक और अयान के अलावा उसके लिए दीपक ने पांच और अंकित ने तीन अंक जुटाए जबकि बंगाल के लिए स्टार रेडर मनिंदर सिंह ने सुपर-10 लगाया। जितिन ने भी 6 अंक लिए जबकि डिफेंस से सागर ने चार अंक बनाए। बंगाल ने मनिंदर के शानदार रेड्स की बदौलत शुरुआती चार मिनट में 5-4 की लीड बना ली थी लेकिन मयूर कदम को आउट कर देवांक ने स्कोर 5-5 कर दिया और फिर अंकित ने मनिंदर को लपक पटना को 6-5 से आगे कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों को 2-2 अंक मिले और फिर फजल ने अयान का थिकाकर चार 8वें मिनट में स्कोर 8-8 कर दिया।

देवांक ने हालांकि फजल को आउट कर अपने साथी का हिसाब बराबर किया और फिर रिवाइव होकर आए अयान ने सिंदेश को आउट कर 10वें मिनट की समाप्ति तक पटना को 11-9 से आगे कर दिया। अब बंगाल के



लिए सुपर टैकल आन था लेकिन प्रणय ने दो अंक की रेड के साथ न सिर्फ इस स्थिति को टाला बल्कि स्कोर भी 11-11 कर दिया। फिर सागर ने देवांक को टैकल कर बंगाल को लीड देना दी। हालांकि पटना ने फिर स्कोर 13-13 से बराबर कर लिया।

सिंदेश ने हालांकि सुधाकर को आउट कर पटना के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। शुभम ने मनिंदर को डू और डाई रेड पर मनिंदर को लपक इसका फायदा उठाया और पटना को 15-14 से आगे कर दिया।

बंगाल ने इसके बाद फासला 1 का किया लेकिन देवांक ने मल्टी प्वाइंट रेड के साथ हाफटाइम तक पटना को 19-15 से आगे कर दिया। फिर देवांक ने हाफटाइम के बाद सुपर रेड के साथ 22-17 किया और बंगाल को आलआउट की ओर धकेल दिया। और फिर इसे अंजाम देकर 27-18 की लीड ले ली।

आलआउट के बाद पटना ने 2 के मुकाबले 3 अंक लेकर 10 अंक का फासला बनाए रखा। और फिर इसे

11 तक पहुंचाते हुए बंगाल को सुपर टैकल सिचुएशन में डाल दिया।

सागर ने हालांकि देवांक को सुपर टैकल कर फासला थोड़ा कम किया। फिर फजल ने देवांक का सुपर टैकल कर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 25-33 कर दिया।

बंगाल की टीम सुपर टैकल के दम पर मैच में बनी हुई थी। मयूर ने अयान के खिलाफ एक और सुपर टैकल के साथ स्कोर 27-34 किया और फिर विश्वास ने अकरम और दीपक को बाहर कर फासला 5 का कर दिया। पटना ने हालांकि 8 अंक की लीड के साथ अपनी स्थिति मजबूत की। यहां से पटना की जीत तय लग रही थी।

मनिंदर और सागर ने हालांकि इसके बाद कुछ अंक लेकर फासला 3 का किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बंगाल अपना हार का सिलसिला नहीं तोड़ सकी और सीजन की नौवीं हार को मजबूर हुई।

न्यूयॉर्क काउबॉयज ने जीता यूएसपीएल सीजन 3 का खिताब



न्यूयॉर्क काउबॉयज ने मैरीलैंड मेवरिक्स को सात विकेट से हराकर यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग (यूएसपीएल) सीजन 3 का खिताब जीत लिया है। फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में रविवार रात (स्थानीय समयानुसार) खेले गए खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मैरीलैंड मेवरिक्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और उन्होंने दूसरे ओवर में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ का विकेट गंवा दिया। हालांकि रयान स्कॉट (25) शुरुआत कुछ खास नहीं रहे और उन्होंने दूसरे गेंदों पर 52 रन) ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद,

मेवरिक्स की टीम कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना सकी और टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी। इस लक्ष्य को न्यूयॉर्क काउबॉयज ने मात्र 3 विकेट खोकर 14 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। काउबॉयज के लिए सलामी बल्लेबाज दिलीप्रीत बाजवा ने 45 गेंदों में 66 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि काउबॉयज ने भी मुख्तार अहमद के रूप में अपना पहला विकेट तोसरे ओवर में ही खो दिया, लेकिन उसके बाद दिलीप्रीत बाजवा और जोशुआ ट्रॉम्प ने दूसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण गेंदों पर 39 रन) और कसान शुभम रंजन (36 गेंदों पर 52 रन) ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद,

डॉन ब्रेडमैन की भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कैप की होमी नीलामी, कीमत 2 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद

नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया के महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रेडमैन द्वारा पहनी गई टोपी मंगलवार को सिडनी में नीलामी की जाएगी, और इस फटी हुई बैगी ग्रीन टोपी के 260,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.2 करोड़ रुपये) तक में बिकने की उम्मीद है। ब्रेडमैन ने 1947-48 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऊनी टोपी पहनी थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी धरती पर दौरे करने वाली टीम का पहला टेस्ट मैच था।



नीलामी घर बोनहमस के अनुसार, यह कैप ब्रेडमैन द्वारा अपनी सबसे शानदार श्रृंखला के दौरान पहनी गई एकमात्र ज्ञात बैगी ग्रीन थी। ब्रेडमैन ने भारत के खिलाफ छह पारियों में 178.75 की औसत से 715 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और एक दोहरा शतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर्स को गहरे हरे रंग की टोपी दी जाती है, जिसका खिलाड़ियों और प्रशंसकों द्वारा सम्मान किया जाता है। काफी हद तक फनीक पड़ने, कौटों से नुकसान के निशान और फटी हुई चोटी के

ओगिवारा, ब्रूक्स ने एफआईएस स्नोबोर्ड बिग एयर विश्व कप खिताब जीता

बीजिंग

जापान के किशोर स्कीयर हिरोतो ओगिवारा और ब्रिटेन की मिया ब्रूक्स ने रविवार को बीजिंग में एफआईएस विश्व कप में क्रमशः पुरुष और महिला स्नोबोर्ड बिग एयर खिताब जीते।

19 वर्षीय ओगिवारा ने 169.50 अंकों के साथ जीत हासिल की, जो इटली के उपविजेता इयान मैटोओली से चार अंक आगे थे, जबकि चीन के यांग वेनलॉंग तीसरे स्थान पर रहे और विश्व कप में पहली बार पोलैंडियम पर पहुंचे।

मैटोओली ने पहली दौड़ में पूरे 2160 चक्कर पूरे करके दर्शकों को चकित कर दिया और प्रभावशाली 97.75 अंक हासिल किए। हालांकि, इतालवी खिलाड़ी अंतिम दो रनों में गति बनाए रखने में विफल रहे और अंत में दूसरे स्थान पर रहे।

25 वर्षीय यांग, जिन्होंने शनिवार को पुरुषों की क्वालीफिकेशन हीट 1 में पहला स्थान हासिल किया, घर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके प्रसन्न थे।

उन्होंने सिन्हुआ से कहा, मैंने हर रन में स्थिर रहने की कोशिश की और प्रत्येक चाल पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करने



और अगले साल एशियाई शीतकालीन खेलों और 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है।

बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चैंपियन चीन के सु यिंग्मिंग फाइनल में अंतिम स्थान पर रहे। महिलाओं की स्नोबोर्ड बिग एयर में 17 वर्षीय ब्रूक्स 179.75 अंकों के साथ शीर्ष पर

रहीं, उसके बाद जापान की मारी फुकुदा और ऑस्ट्रेलियाई अनुभवी अन्ना गैसर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही।

इससे पहले रविवार को नॉर्वे के टॉरमोड फ्रॉस्टेड और फ्रान्सीसी स्कीयर टेस लेड्यूक्स को बीजिंग के शूगांग में पुरुषों और महिलाओं की प्रोस्की बिग एयर में ताज पहनाया गया था।

दूसरे टेस्ट में भी यशस्वी और राहुल के ही पारी शुरु करने की संभावना

एडीलेड। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट अब छह दिसंबर से यहां शुरु होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट से टीम की कमान संभालेंगे। यह टेस्ट मेच दिन-रात का होने के कारण गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। रोहित दूसरी बार पिता बनने के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर थे। रोहित के नहीं होने पर पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने पारी की शुरुआत करते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि गुलाबी गेंद से होने वाले दूसरे टेस्ट में भी यही जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी और रोहित मध्यक्रम में उतरेंगे। पहले मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने पारी की शुरुआत करते हुए। दूसरी पारी में 200 रन से ऊपर की साझेदारी कर नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ भी इसी जोड़ी ने पारी की शुरुआत की थी। उससे ये संकेत मिलते हैं कि अब दूसरे टेस्ट में भी यही जोड़ी उतरेंगी और रोहित मध्यक्रम में खेलेंगे। रोहित का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में वह भी नहीं चाहेंगे कि टीम की शुरुआत खराब हो। इसी कारण वह रोहित ने प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ मुकाबले में राहुल को ही शुरुआत के लिए भेजा था। इससे प्रशंसकों ने अंदाज लगाया शुरू कर दिया कि टीम दूसरे टेस्ट में भी इसी बल्लेबाजी क्रम के साथ खेलने उतरेंगी। अच्छी तरह हासिल कर चुकी यशस्वी और राहुल की जोड़ी में अब बदलाव की संभावना को वह नहीं देखते। वहीं इससे पहले अनुभवी बल्लेबाज वेंकटेश्वर पुजारा ने भी कहा कि दूसरे टेस्ट में भी यशस्वी और राहुल ही पारी की शुरुआत करें और रोहित मध्यक्रम पर उतरें। साथ ही कहा था कि सलामी जोड़ी में बदलाव से नुकसान हो सकता है।

ब्यूटी टिप्स

बिना प्रॉडक्ट्स के दिखना है खूबसूरत तो खाएं ये चीजें



बढ़ती उम्र के कारण स्किन अपनी नैचुरल ब्यूटी खो देती है, जिस वजह से चेहरे पर बारीक रेखाएं और झुर्रियां दिखने लगती हैं। वैसे तो इससे बचने के लिए लोग मार्किट में मिलने वाले महंगे प्रॉडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी कोई क्रिम या प्रॉडक्ट नहीं होता जो आपकी स्किन की खूबसूरती को सालों-साल बरकरार रखते हो। मार्किट में मिलने वाले इन ब्यूटी प्रॉडक्ट्स में कई कैमिकल्स होते हैं, जो स्किन को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में आप कुछ हैल्दी फूड्स खाकर अपनी स्किन को जवां बनाए रख सकती हैं क्योंकि जब आप हैल्दी फूड खाते हैं तो इसका सीधा असर स्किन पर पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताने जा रहे, जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करके जिंदगीभर जवां बनी रह सकती हैं।

एंटीऑक्सीडेंट्स

अपने रोजाना की डाइट में एवोकैडो, संतरा, टमाटर, स्ट्रॉबेरीज, चुकंदर, गाजर, आलू और नींबू जैसी चीजों को शामिल करें क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं। इससे आप झुर्रियों की समस्या से बचे रह सकते हैं।

फैट्स

फैट्स से भरपूर फूड्स स्किन की अंदरूनी नमी को बनाए। साथ ही स्किन हाइड्रेटेड रहती है। इसलिए अपनी डाइट में घी और ऑयल को शामिल करें।

प्रोटीन

स्किन में टिश्यू बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। ये आपकी स्किन को यंग दिखाने के साथ इसे अंदर से मजबूत बनाता है।

इन्हें खाने से बनाएं दूरी

अगर आपको पिंपल्स की परेशानी हो तो दूध से बनी चीजों से परहेज करें। इसके साथ स्मॉकिंग, एल्कोहल, मीठी चीजें, मैदा जैसी चीजों को भी अपनी डाइट से दूर रखें।



प्रेग्नेंसी के दौरान स्लीपिंग पोजीशन का ध्यान रखना भी है जरूरी

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं अपने खान-पान से लेकर छोटी-छोटी बातों का खास खयाल रखती हैं। ऐसे में छोटी सी गलती भी मां और शिशु के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में गलत तरीके से सोने पर पेट पर दबाव पड़ने के कारण बच्चे के वजन और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी के दौरान आपको कैसी स्थिति में सोना चाहिए।

▶▶ ऐसी स्थिति में महिलाओं को बाई तरफ की पोजीशन में सोना चाहिए। इससे बच्चे को अच्छी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और पोषण मिलता है।

▶▶ शुरुआत के महीनों में महिलाओं को सीधा होकर सोना चाहिए। इससे बच्चे का विकास

अच्छी तरह होता है।

▶▶ बाई पोजीशन में सोते समय आप पैरों की बीच तकिया रख लें। इससे आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी।

▶▶ प्रेग्नेंसी के दौरान घेन से सोने के लिए आप सॉफ्ट पिलो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।



▶▶ इस दौरान दाई तरफ सोने से आपको सारी रात जगना पड़ सकता है। दाई तरफ सोने से आपको नींद बार-बार खुलने लगती है जिसके कारण आपको नींद पूरी नहीं होती।

▶▶ गलती से भी प्रेग्नेंसी के दौरान पेट के बल न सोएं। इससे पेट में आपका बच्चे की पोजीशन चेज हो सकती है और डिलवरी के समय आपके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

▶▶ पेट के बल सोने से आपको सूजन और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे समय में भूलकर भी पेट के बल न सोएं।

दुल्हन हो या उसकी बहन, ये यूनिक मेंहदी डिजाइन्स जरूर लगाएं

इंडियन वैडिंग में मेंहदी लगाना शगुन माना जाता है, तभी तो शादी के एक फंक्शन में मेंहदी का फंक्शन भी रखा है। शादी केवल दुल्हन ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स, रिश्तेदार भी लगते हैं। इसके अलावा अगर काफ़ी फेस्टिवल हो तो महिलाएं मेंहदी लगाकर अपना शौक पूरा करती हैं। आजकल हाथों, पैरों के साथ पीट पर और पेट पर भी इसका ट्रेंड बढ़ गया है। मेंहदी भी कई तरह की होती है जैसे अरेबियन, राजस्थानी, कलरड, टैटू और चूड़ीदार डिजाइन्स अन्य आदि। अगर बात दुल्हन की मेंहदी की हो तो उसका डिजाइन्स कुछ हटके होना चाहिए क्योंकि नए घर में हर कोई उसकी मेंहदी देखेगा और मेंहदी की रात को लेकर भी काफी चर्चा होती है। अगर आप भी मेंहदी के खूबसूरत और ट्रेंडी डिजाइन्स तलाश रही हैं तो हम आपको कुछ डिजाइन्स बताएंगे, जिनसे आप भी आईडियाज ले सकते हैं।


अरेबिक मेंहदी डिजाइन



राजस्थानी मेंहदी डिजाइन



यहां हजारों साल पहले की गई कलाकारी आज भी है कायम



हमारे देश में बहुत सी ऐतिहासिक और धार्मिक इमारतें हैं, जिन्हें देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। अपने बच्चों को देश की अनमोल विरासत के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो इस बार देश की उन हिस्सों की सैर करें जो अपने अंदर सदियों पुराने इतिहास की खूबसूरत इमारतों को आज भी संजोए बैठे हैं।

किमची

जम्मू कश्मीर में स्थित किमची ऊधमपुर का एक छोटा-सा गांव है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर भारत का सबसे पुराना मंदिर है। जो पांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर खूबसूरत पवरी हिल रिजॉर्ट भी है। जहां पर आप परिवार के साथ एंजाया भी कर सकते हैं।

कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा हिमाचल की खूबसूरत घाटियों में से एक है। यहां पर आप खूबसूरत वादियां, हिमालय पिरामिड, मैसूर रॉक

कट टैपल, कांगड़ा फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट के साथ और भी बहुत सी जगहों पर घूम सकते हैं।

जागेश्वर

जागेश्वर में देखने के लिए बहुत पुराने और खूबसूरत मंदिर हैं। यहां पर 124 के करीब मंदिर हैं, इस जगह पर घूमने का अलग ही मजा है।

खजुराहो

देश की पुरानी कला और संस्कृति को देखना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर फेमस है। अपने

अनोखे स्थापत्य के लिए जाने जाते इन मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं।

वाराणसी

काशी के नाम से जाने जाते वाराणसी में भी प्राचीन मंदिर देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं। ये शहर अपने अनेकों रंगों के कारण प्रसिद्ध है।

पानीपत

पानीपत की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा में स्थित इस जगह की खोज महाभारत काल के

दौरान हुई थी। यहां पर म्यूजियम, मंदिर, इब्राहीम लोधी की कब्रगाह के अलावा और भी बहुत सी जगहें हैं।

भीमाटेक रॉक शेल्टर्स

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में स्थित यह जगह एक आर्कीयोलॉजिकल साइट है। इन गुफाओं को पाषाण काल के साथ जोड़ कर देखा जाता है। इन पत्थरों पर जानवरों के उकेरे गए चित्र उस समय के लोगों की कलाकृति दर्शाते हैं। कहा जाता है कि यह कलाकार हजारों साल पुरानी हैं।

रेसिपी



विधि

सबसे पहले एक बाउल में मैदा लें। इसमें नमक, काली मिर्च और पानी डालकर पतला बटर तैयार कर लें। अब एक प्लेट में ब्रेड क्रम डालें। गोभी के छोटे-छोटे टुकड़ों को पहले मैदे के घोल में डालें और फिर इन्हें ब्रेड क्रम में डालें ताकि ब्रेड क्रम गोभी के चारों तरफ लग जाए। इसी तरह सारी गोभी पर मैदा और ब्रेड क्रम लगा कर तैयार कर लें। एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें गोभी डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब एक दूसरे पैन में सोया सॉस, शहद, लहसुन, नींबू का रस, चिली सॉस और टोमेटो केचअप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक दूसरी कटोरी में अरारोट लेकर 1 चम्मच पानी घोल तैयार करें और उसे भी पैन में डाल दें ताकि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें। अब एक दूसरी कड़ाही में फ्राई की हुई गोभी डालें और उस पर तैयार सॉस डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे एक प्लेट में निकालें और ऊपर से कटे हुए हरे प्याज से गार्निश करें। आपकी हनी गार्लिक कॉलीफ्लोवर तैयार है। इसे गर्मा-गर्म सर्व करें।

हनी गार्लिक कॉलीफ्लोवर सामग्री

1 बाउल गोभी (छोटे साइज में कटी हुई), 2 लहसुन की कलियां (बारीक कटी), 1 नींबू का रस, 1/4 कप बारीक कट हरा प्याज, 1/3 कप शहद, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1/3 कप सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 कप मैदा, 2 चम्मच अरारोट, 2 कप ब्रेड क्रम, 1 कप पानी, तलने के लिए तेल

विधि

सबसे पहले एक बाउल में मैदा लें। इसमें नमक, काली मिर्च और पानी डालकर पतला बटर तैयार कर लें। अब एक प्लेट में ब्रेड क्रम डालें। गोभी के छोटे-छोटे टुकड़ों को पहले मैदे के घोल में डालें और फिर इन्हें ब्रेड क्रम में डालें ताकि ब्रेड क्रम गोभी के चारों तरफ लग जाए। इसी तरह सारी गोभी पर मैदा और ब्रेड क्रम लगा कर तैयार कर लें। एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें गोभी डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब एक दूसरे पैन में सोया सॉस, शहद, लहसुन, नींबू का रस, चिली सॉस और टोमेटो केचअप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक दूसरी कटोरी में अरारोट लेकर 1 चम्मच पानी घोल तैयार करें और उसे भी पैन में डाल दें ताकि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें। अब एक दूसरी कड़ाही में फ्राई की हुई गोभी डालें और उस पर तैयार सॉस डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे एक प्लेट में निकालें और ऊपर से कटे हुए हरे प्याज से गार्निश करें। आपकी हनी गार्लिक कॉलीफ्लोवर तैयार है। इसे गर्मा-गर्म सर्व करें।

विधि

एक बड़ी कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च डालकर 3 से 5 मिनट के लिए भूनें, जब तक कि यह सुनहरा भूरा न हो जाए। फिर इसमें 3 चम्मच केचअप और 2 चम्मच चिली सॉस डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद 2 चम्मच पीनट बटर डालकर मिलाएं। फिर 500 ग्राम पनीर को इसमें अच्छे से मिक्स करें। अब 1 चम्मच सरसों का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। आपका झटपट पनीर तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें।

झटपट पनीर सामग्री

तेल - 1 चम्मच, अजवाइन - 1/2 चम्मच, लहसुन - 2 चम्मच, हरी मिर्च - 1 चम्मच, केचअप - 3 चम्मच, चिली सॉस - 2 चम्मच, लाल मिर्च - 1/4 चम्मच, काली मिर्च - 1/4 चम्मच, चिली फ्लेक्स - 1 चम्मच, चाट मसाला - 1 चम्मच, नमक - 1 चम्मच, पीनट बटर - 2 चम्मच, पनीर - 500 ग्राम, सरसों का पेस्ट - 1 चम्मच